



॥ अर्हम् ॥

श्रीवीतरागाय नमः ।

अथ श्रीआत्मशिक्षाज्ञावना ।

॥ दोहा ॥

श्रीजिनवरमुखवासिनी, जगमें ज्योतिप्रकाश ।  
पद्मासन परमेश्वरी, पूरे वंठित आश ॥१॥  
ब्रह्मसुता गुण आगली, कनक कमंडलु सार ।  
वीणापुस्तकधारिणी, तुं त्रिचुवन जयकार ॥२॥  
श्रीसरस्वति जिन पाय नमी, मन धरि हर्ष अपार ।  
आत्म शिखा ज्ञावना, जणुं सुणो नर नार ॥३॥  
रे जीव सुण तुं वापका, हिये विमासी जोय ।  
आपस्वारथी सहु मढ्युं, ताहारुं नहिं जग कोय ॥४॥  
धर्म विना सुण जीवका, तुं जस्यो जव अनंत ।  
मूढपणे जव तें किया, इस बोले जगवंत ॥५॥



पूर्व कोमिने आजखे, ज्ञानी गुरुह अपार ।  
उत्पत्तिकहि जीव ताहरी, कहतां नावे पार ॥१४॥  
पुत्र पिता पणें अवतरे, पिता पुत्र पणें जोय ।  
माता सगपणें नारि मली, नारी माता होय ॥१५॥  
सूतो सुपन जंजालमां, पाम्यो जाणें राज ।  
जव जाग्यो तव एकलो, राज न सीजे काज ॥१६॥  
तिम ए कुटुंब सहु मद्युं, खोटी माया जाल ।  
आयू पहाँचे आपणें, खिण थायें विसराल ॥१७॥  
सोदो लेयण जणें मिले, जिहां जोमी सहि हाट ।  
आथ सारु विवसाय करी, फरि चाट्या निजवाट ॥१८॥  
तिम जव जमतां सवि मद्या, कुटुंब जोमिजो हाट ।  
पुण्य पाप विवसाय करी, जो ऊतरिये घाट ॥१९॥  
इम कुटुंब मिद्युं कारिमुं, माय अने वलि ताय ।  
बंधू जगिनी नारजा, को केहनो न कहाय ॥२०॥  
नव नव नाटक तुं वली, नाच्यो करि बहु रूप ।  
नाटक एकशुं नाचिये, जो वूटे जव कूप ॥२१॥



जरा आवी जोवन गयुं, शिर पलिया ते केश ।  
लबुता तो ठोमी नहीं, न कस्यो धर्म लवलेश ॥३०॥  
पंचेंद्रिय जिहां परवसा, रोग जरा नावंत ।  
जोवन चंचल आवे सदा, कर तुं धर्म महंत ॥३१॥  
ठते हाथ न वावस्यो, संवल न कियो साथ ।  
आय गई मन चेतियो, पठे घसे निज हाथ ॥३२॥  
धन जोवन नर रूपनो, गर्व करे तुं गमार ।  
कृष्ण बलजड द्वारिका, जातां न लागी वार ॥३३॥  
आठ पहोर तुं धसमसी, धनार्थ देशांतर जाय ।  
सो धन मेढ्युं ताहरुं, ओरज कोई खाय ॥३४॥  
आंख तणे फरुकमे, ऊथल पाथल थाय ।  
इस्युं जाणी जीव वापसा, म करिश ममता माय ॥३५॥  
माया सुख संसारमां, ते सुख सहिय असार ।  
धर्म पसायें सुख मले, ते सुख नावे पार ॥३६॥  
नयन फरुके जिहां लगे, तिहां तहारुं सहु कोय ।  
नयन फरुकत जब रही, तब तहारुं नहिं होय ॥३७॥



जे विन घणिय न जायती, सो वरसां सो जाय ।  
 ते बढलज्ज विसरी गयो, औरहिसुं चित लाय ॥४६॥  
 देखत सब जुग जातुही, थिर न रही सवि कोय ।  
 झस्युं जाणी जलुं कीजियें, हियरु विमासी जोय ॥४७॥  
 सुरपति सवि सेवा करे, राय राणा नर नार ।  
 आय पहोते आतमा, जात न लागे वार ॥४८॥  
 देखत नर अंधा हुआ, जे मोहे विंद्या बाल ।  
 ज्ञाया गणया मूरख बली, नर नारी बाल गोपाल ॥४९॥  
 रात दिवस निज नारिशुं, तुं रमतो मन रंग ।  
 जे जोइये ते पूरतो, जलट आणी अंग ॥५०॥  
 सो रामा जीव ताहरी, क्षणमांही विघटाय ।  
 स्वारथ पहोंचत जब रह्यो, तव फरि वैरी थाय ॥५१॥  
 समुद्र छीप सायर सबे, पामे को नर पार ।  
 नारी विद्ध चरित्रनो, को नवि पाम्यो पार ॥५२॥  
 ब्रह्मा नारायण ईश्वर, इंद्र चंद्र नर क्रोर ।  
 ललना बचने बालची, ते रह्या बे कर जोर ॥५३॥





जे विन घमिय न जायती, सो वरसां सो जाय ।  
 ते वदलज विसरी गयो, ओरहिसुं चित लाय ॥४६॥  
 देखत सब जुग जातुही, थिर न रही सवि कोय ।  
 झस्युं जाणी नलुं कीजियें, हियरु विमासी जोय ॥४७॥  
 सुरपति सवि सेवा करे, राय राणा नर नार ।  
 आय पहोते आतमा, जात न लागे वार ॥४८॥  
 देखत नर अंधा हुआ, जे मोहे विंव्या बाल ।  
 नण्या गण्या मूरख बली, नर नारी बाल गोपाल ॥४९॥  
 रात दिवस निज नारिशुं, तुं रमतो मन रंग ।  
 जे जोश्ये ते पूरतो. ऊलट आणी अंग ॥५०॥  
 सो रामा जीव ताहरी, क्णमांही विघटाय ।  
 स्वारथ पहुँचत जब रह्यो, तव फरि वैरी थाय ॥५१॥  
 समुद्र द्वीप सायर सबे. पामे को नर पार ।  
 नारी बिद्ध चरित्रनो, को नवि पाम्यो पार ॥५२॥  
 ब्रह्मा नारायण ईश्वर, इंद्र चंद्र नर क्रोन ।  
 ललना बचने लालची, ते रह्या वे कर जोन ॥५३॥



तुं पर काम करी सदा, निज काज न करिय लगार ।  
अक्षत्र नक्षत्र करिय तुं, किम बूटिश जव पार ॥६३॥  
पाप घनो पूरण जरी, तें लीओ शिर चार ।  
ते किम बूटिश जीवना, न करी धर्म लगार ॥६३॥  
इसुं जाणी कूरु कपट, ठल बिद्र तुं ठांरु !  
ते ठांमीने जीवना, जिन धर्मे चित मांरु ॥६४॥  
जिण वचने पर दुःख हुण, जिण होय प्राणी घात ।  
क्लेश पने निज आतमा, तज उत्तम ते वात ॥६५॥  
जिम तिम पर सुख दीजिये, दुःख न दीजे कोय ।  
दुःख देई दुःख पामिये, सुख देई सुख होय ॥६६॥  
पर तांत निंदा जे करे, कूमां देवे आल ।  
मर्म प्रकाशे परतणा, तेथि जलो चंमाल ॥६७॥  
पटमासीने पारणे, इक सिथ लहे आहार ।  
करतो निंदा नवि टले, तस दुर्गति अवतार ॥६७॥  
ठार उपर जिम लीपणुं, तिम क्रोधे तप कीध ।  
तस तप जप संजम मुधा, एके काज न सिद्ध ॥६८॥



नरञ्चव चिंतामणी लही, आले तुं मम हार ।  
 धर्म करीने जीवमा, सफल करो अवतार ॥७७॥  
 सकल सामग्री तें लही, जिण तरिये संसार ।  
 प्रमाद वशे ञ्चव कांगमे, कर निज हिये विचार ॥७८॥  
 दियो उपदेश लागे नही, जो नवि चिंते आप ।  
 आप स्वरूप विचारतां, बुटीजे सवि पाप ॥७९॥  
 जिण रस पाप किया तुमे, तिण रस तुं कर धर्म ।  
 अक्षत्र नक्षत्र ञ्चव अनंतना. बुटीजे सवि कर्म ॥८०॥  
 जिम आज्ञा दिन गुणी, वरस मास घनिमान ।  
 चेति शके तो चेतजे, जो होए हियके शान ॥८१॥  
 धन कारण तुं ऊलफले, धर्म करि थाये सूर ।  
 अनंत ञ्चवनां पाप सवि, क्षणमां जाये दूर ॥८२॥  
 जे रचना दिन ऊगती, ते रचना नहिं सांऊ ।  
 इस्थुं जाणी रे जीवमा, चेतहि हियमा मांऊ ॥८३॥  
 आशा अंबर जेवनी, मरवुं पगला हेठ ।  
 धर्म विना जे दिन गया, तिण दिन कीधि वेठ



आठमो सुभ्रूम चक्रवी, ऋद्धि तणो नहिं पार ।  
 कर्मवशे परिवारशुं, ब्रूमा समुद्र मजार ॥९४॥  
 पांच पांरुव अतुली वली, तेह जम्या वनवास ।  
 इस्या पुरुष जगमां वली, दीनपणे फर्या निराश ॥९५॥  
 राम लखमण जगमां वली, जेहनु जपे सहु नाम ।  
 ते वनवासमांहे रह्या, जे बहु गुणना धाम ॥९६॥  
 रावण विकट रामे हएयो, कृष्णे हएयो जरासंध ।  
 जराकुमर हरिने हएयो, देखो कर्मनो वंध ॥९७॥  
 निज पुत्री ताते वरी, तस कूखे सुत हेव ।  
 कर्मवशे जीव ऊपनो, त्रिपृष्ठ वासुदेव ॥९८॥  
 जमतां जमतां अवतस्यो, देवानंदानी कूख ।  
 व्यासी रात्रि तिहां रही, कर्मे लह्युं वलि दुःख ॥९९॥  
 इंद्र अहिद्वयाशुं जुओ, लुब्ध हुओ सुरदेव ।  
 ईश्वर देव नचावियो, पारवती पियु हेव ॥१००॥  
 मासखमणने पारणे, कूलवालुओ अणगार ।  
 चित्त बलगुं संग नारिये, चूकत न लागी वार ॥१०१॥





आठमो सुचूम चक्री, ऋद्धि तणो नहिं पार ।  
कर्मवशे परिवारशुं, ब्रूना समुद्र मजार ॥९४॥  
पांच पांरुव अतुली बली, तेह नम्या वनवास ।  
इस्या पुरुष जगमां वली, दीनपणे फःस्या निराश ॥९५॥  
राम लखमण जगमां वली, जेहनु जपे सहु नाम ।  
ते वनवासमांहे रह्या, जे बहु गुणना धाम ॥९६॥  
रावण विकट रामे हएयो, कृष्णे हएयो जरासंध ।  
जराकुमर हरिने हएयो, देखो कर्मनो वंध ॥९७॥  
निज पुत्री ताते वरी, तस कूखे सुत हेव ।  
कर्मवशे जीव ऊपनो, त्रिपृष्ठ वासुदेव ॥९८॥  
नमतां नमतां अवतस्यो, देवानंदानी कूख ।  
व्यासी रात्रि तिहां रही, कर्मे लह्युं वलि दुःख ॥९९॥  
इंद्र अहिट्याशुं जुओ, बुब्ध हुओ सुरदेव ।  
ईश्वर देव नचात्रियो, पारवती पियु हेव ॥१००॥  
मासखमणने पारणे, कूलवालुओ अणगार ।  
चित्त बलगुं संग नारिये, चूकत न लागी वार ॥१०१॥



खट्ट नंदन देवकि तणा, जहिलपुर सुलसा नार ।  
तास घरे ते उच्छस्या, रूपे देव कुमार ॥११०॥  
बत्रीश बत्रीश पदमणी, बत्रीश बत्रीश हेम कोरु ।  
नेम समीप संयम वरी, ते वंडू कर जोरु ॥१११॥  
सहस्स पुरुषशुं संजम लियो, श्रीनेमीसर हाथ ॥  
ते थावच्चो वंदिये, मोच्छव कस्यो यदुनाथ ॥११२॥  
वार वरष ठठ आंवल, कीधां शिवकुमार ।  
शीयल व्रत सदा धरी, ए पण दुक्करकार ॥११३॥  
कोश्या मंदिर चोमासुं रही, चोराशी चोवीश ।  
ते शूलिज्जद्र मुनि वदिये, जद्रवाहु गुरुशिष्य ॥११४॥  
कपिला संगे नवि चढ्यो, शेठ सुदर्शन चंग ।  
शूली सिंहासन थई, सुर करे मनने रंग ॥११५॥  
शिवरमणीने कारणे, जिण सुख ठंड्यां देह ।  
तस नाम दोय चार लीजिये, जविजन सुणजो तेह ॥  
वरस दिवस काजसग्ग कियो, वाहूवल अणगार ।  
मानगजेथी जतस्यो, तव लियो केवल सार ॥११७॥



वंश उपर नाटक करी, एलापुत्र कुमार ।  
जाति समरण ऊपनुं, ज्ञान अनन्त अपार ॥१२६॥  
कर्म वशे आषाढमुनि, चरतनुं नाटक कीध ।  
अनित्य नावना जावतां, तिणे तिहां केवल लीधा ॥१२७॥  
सुशिष्य पंथकजी मुनि, गुरु प्रमाद कियो दूर ।  
शत्रुंजय अणसण करी, ते बंदू गुण सूर ॥१२८॥  
चंद्ररौद्र गुरु खंधे करी, रजनी कियो विहार ।  
शिष्य पण केवल पामियो, तिम गुरु केवलधार ॥१२९॥  
पद्मासीने पारणे, ढंढण नाम कुमार ।  
मोदक चूरत पामियो, केवल ज्ञान उदार ॥१३०॥  
पद् खंरु राज हेलां तजी, लीधो संजम चार ।  
पद्दश रोग इहां सह्या, श्रीसनत्कुमार ॥१३१॥  
कूर चखतां केवल लह्युं, कूरगनु अणगार ।  
द्धमा खड्ग हाथे धरी, जे मुनिमां सिणगार ॥१३२॥  
पंखी प्राणज राखवा, करि खंनोखंन देह ।  
मेघरथ रायतणे चवे, प्रसन्न हुओ सुर तेह ॥१३३॥



हरिचंद्राय करम वशे, शिर वहुं मुंघ घर नीर ।  
कर्म वशे नर सवि नम्या, जे जग वावन वीर ॥१४१॥  
गज ब्राह्मण स्त्री बालका, दृढप्रहारे हत्या कीध ।  
चार पोल काजसग्ग रही, षट्मास केवल लीध ॥१४२॥  
मेरु ढले ने ध्रुव चले, सायर लोपे लीह ।  
कीधां कर्म न बूटिये, जो ऊगे पच्छिम दीह ॥१४३॥  
कीधां कर्म तो बूटिये, जो कीजे जिनधर्म ।  
मन वच कायाये करी, ए जिन शासन मर्म ॥१४४॥  
कर्म प्रकाशी आपणां, मन शुद्ध आणंद पूर ।  
सह गुरु पास अठे वली, जाय पाप सवि दूर ॥१४५॥  
बलवंत अनंता जे नरा, केश सुर सुजट जूजार ।  
कर्म सुजट जुओ एकले, सर्वी मनाव्या हार ॥१४६॥  
कर्म सुजट विषम विकट, ते वश कियो न जाय ।  
जे नर एहने वश करे, हुं वंडू तस पाय ॥१४७॥  
इम जाणीने कीजिये, जिम आतम सुख आय ।  
परजीव दुःख न दीजिये, इम वोढ्या जिनराय ।





जावना ठे जव नाशिनी, जे आपे जवपार ।  
जावना वरि संसारमां, जस गुणनो नहिं पार ॥१५७॥  
अरिहंत देव सुसाधु गुरु, केवलिजापित धर्म ।  
इसुं समकित आराधतां, बूटीजे सविकर्म ॥१५८॥  
नव पद् जापज कीजिये, चउद पुरवनो सार ।  
इस्या मंत्र गणिये सदा, जे तारे नर नार ॥१६०॥  
सकल तीरथनो राजियो, कीजे तेहनी यात्र ।  
जस दरिसणे दुर्गति टले, निर्मल थाये गात्र ॥१६१॥  
अष्टापद अर्बुदगिरि, समेत शिखर गिरनार ।  
पांचे तीरथ वंदिये, मन धरि हर्ष अपार ॥१६२॥  
ऋपज शांति जग नेमि जिन, पार्श्व अने वर्द्धमान ।  
पांचे तीरथ प्रणमतां, नित वाधे जिउ वान ॥१६३॥  
उत्तम नर नारी तणां, नाम क ह्यां एमांय ।  
नाम निरंतर लीजिये, जिम सहि आणंद थाय ॥१६४॥  
आतम शिक्षा जावना, गुणमणि रयण चंकार ।  
पाप टले सवि तेहनां, जेह जणे नर नार ॥१६५॥



जावना ठे जव नाशिनी, जे आपे जवपार ।  
जावना वरि संसारमां, जस गुणनो नहिं पार ॥१५७॥  
अरिहंत देव सुसाधु गुरु, केवलिजापित धर्म ।  
इसुं समकित आराधतां, वूटीजे सवि कर्म ॥१५८॥  
नव पद् जापज कीजिये, चउद पुरवनो सार ।  
इस्या मंत्र गणिये सदा, जे तारे नर नार ॥१५९॥  
सकल तीरथनो राजियो, कीजे तेहनी यात्र ।  
जस दरिसणे दुर्गति टले, निर्मल थाये गात्र ॥१६०॥  
अष्टापद अर्बुदगिरि, समेत शिखर गिरनार ।  
पांचे तीरथ वंदिये, मन धरि हर्ष अपार ॥१६१॥  
ऋषज शांति जग नेमि जिन, पार्श्व अने वर्द्धमान ।  
पांचे तीरथ प्रणमतां, नित वाधे जिउ वान ॥१६२॥  
उत्तम नर नारी तणां, नाम क ह्यां एमांय ।  
नाम निरंतर लीजिये, जिम सहि आणंद थाय ॥१६३॥  
आत्म शिक्का जावना, गुणमणि स्वण जंकार ।  
पाप टले सवि तेहनां, जेह जणे नर नार ॥१६४॥



म्लेच्छराय जिणे वश कस्यो, जग वर्त्तावि अमार ।  
विमलाचल मुक्तो कियो, शासन शोचाकार ॥१७४॥  
कुमारपाल प्रतिबोधियो, श्रीश्रीहेम सुरींद ।  
तिम अकबर गुरु हीरजी, मन धरि अति आणंद ॥  
ध्यानवशे निज पद दियो, निज मन हर्ष अपार ।  
विजयसेनसुरि नामथी, नित होय जय जय कार १७६  
कामकुञ्ज चिंतामणि, कदपतरू अवतार ।  
ते सविथी जेह सिद्धिनी, अधिक ए जवि विचार ॥  
विजयसेन गुरुराय वर, विजयदेव सूरींद ।  
विजयमान गुरु वंदिये, जिम सूरज उर चंद ॥१७७॥  
तपगच्छ वाचकमें वरूं, विमलहर्ष शिरताज ।  
नामें नवनिधि संपजे, दरिसण सीजे काज ॥१७८॥  
आत्मशिक्षा चावना, तास शिष्य मनरंग ।  
प्रेमविजय प्रेमे करी, जलट आणी अंग ॥१७९॥  
श्रीरत्नहर्ष विबुध मुऊ, बंधू तास पसाय ।  
तास सांनिध्य ग्रंथ में कस्यो, मन धरि हर्ष अपार १८१

आतम शिक्षा चावना, जे सुणे हर्ष अपार ।  
 नवनिधितस घर संपजे, पुत्र कलत्र परिवार ॥१६६॥  
 ए सुणतां सुख ऊपजे, अंग टले सवि रीस ।  
 समतारसमां जीवरो, जीले ते निशदीस ॥१६७॥  
 इण नव परनव नव नवे, जिन मागूं हुं हेव ।  
 मन वच कायाये करी, द्यो तुम चरणनी सेव ॥१६८॥  
 ए गुण जिहां चावशुं, तिहां रान वेलाउल थाय ।  
 आतम शिक्षा नामथी, सुर नर लागे पाय ॥१६९॥  
 वीर शासन दीपावतो, आणंदविमलसूरींद ।  
 प्रमाद पंथ दूरे कर्यो, प्रणमुं तेह आणंद ॥१७०॥  
 तास शिष्य मुनीसर धणी, श्रीविजयदान सूरीश ।  
 प्रगट महिमा तस जागतो, पाय नमे नर ईश ॥१७१॥  
 उपशम रसनो कूपलो, तास पट्टधर हीर ।  
 सकल सूरि शिरोमणि. सायर जिम गंजीर ॥१७२॥  
 हीरविजय गुरु हीरलो, प्रतिबोध्यो अकवर नूप ।  
 राय राणा सेवा करे, जेहनुं अकल स्वरूप ॥१७३॥

म्लेच्छराय जिणे वश कस्यो, जग वर्त्तावि अमार ।  
विमलाचल मुक्तो कियो, शासन शोभाकार ॥१७४॥  
कुमारपाल प्रतिबोधियो, श्रीश्रीहेम सुरींद ।  
तिम अकबर गुरु हीरजी, मन धरि अति आणंद ॥  
ध्यानवशे निज पद दियो, निज मन हर्ष अपार ।  
विजयसेनसुरि नामथी, नित होय जय जय कार १७६  
कामकुच चिंतामणि, कटपतरू अवतार ।  
ते सविथी जेह सिद्धिनी, अधिक ए जवि विचार ॥  
विजयसेन गुरुराय वर, विजयदेव सूरींद ।  
विजयमान गुरु वंदिये, जिम सूरज उर चंद ॥१७७॥  
तपगच्छ वाचकमें वरूं, विमलहर्ष शिरताज ।  
नामें नवनिधि संपजे, दरिसण सीजे काज ॥१७८॥  
आत्मशिक्षा जावना, तास शिष्य मनरंग ।  
प्रेमविजय प्रेमे करी, जलट आणी अंग ॥१७९॥  
श्रीरत्नहर्ष त्रिवुध मुज, बंधू तास पसाय ।  
तास सांनिध ग्रंथ में कस्यो, मन धरि हर्ष अपार १८१



आतम शिक्षा चावना, जे सुणे हर्ष अपार ।  
 नवनिधितस घरसंपजे, पुत्र कलत्र परिवार ॥१६६॥  
 ए सुणतां सुख ऊपजे, अंग टले सविरीस ।  
 समतारसमां जीवको, जीले ते निशदीस ॥१६७॥  
 शण चव परचव चव चवे, जिन मागूं हुं हेव ।  
 मन वच कायाये करी, द्यो तुम चरणनी सेव ॥१६८॥  
 ए गुण जिहां चावशुं, तिहां रान वेलाउल थाय ।  
 आतम शिक्षा नामथी, सुर नर लागे पाय ॥१६९॥  
 वीर शासन दीपावतो, आणंदविमलसूरींद ।  
 प्रमाद पंथ दूरे कर्यो, प्रणमुं तेह आणंद ॥१७०॥  
 तास शिष्य मुनीसर धणी, श्रीविजयदान सूरीश ।  
 प्रगट महिमा तस जागतो, पाय नमे नर ईश ॥१७१॥  
 उपशम रसनो कूपलो, तास पट्टधर हीर ।  
 सकल सूरि शिरोमणि, सायर जिम गंजीर ॥१७२॥  
 हीरविजय गुरु हीरलो, प्रतिबोध्यो अकवर चूप ।  
 राय राणा सेवा करे, जेहनूं अकल स्वरूप ॥१७३॥

म्लेच्छराय जिणे वश कस्यो, जग वर्त्तावि अमार ।  
विमलाचल मुक्तो कियो, शासन शोचाकार ॥१७४॥  
कुमारपाल प्रतिबोधियो, श्रीश्रीहेम सुरींद ।  
तिम अकबर गुरु हीरजी, मन धरि अति आणंद ॥  
ध्यानवशे निज पद दियो, निज मन हर्ष अपार ।  
विजयसेनसुरि नामथी, नित होय जय जय कार १७६  
कामकुञ्ज चिंतामणि, कटपतरू अवतार ।  
ते सविथी जेह सिद्धिनी, अधिक ए जवि विचार ॥  
विजयसेन गुरुराय वर, विजयदेव सूरींद ।  
विजयमान गुरु वंदिये, जिम सूरज उर चंद ॥१७७॥  
तपगन्ध वाचकमें वरूं, विमलहर्ष शिरताज ।  
नामें नवनिधि संपजे, दरिसण सीजे काज ॥१७८॥  
आत्मशिक्षा जावना, तास शिष्य मनरंग ।  
प्रेमविजय प्रेमे करी, ऊलट आणी अंग ॥१७९॥  
श्रीरत्नहर्ष विबुध मुऊ, वंधू तास पसाय ।  
तास सांनिध्यंथ में कस्यो, मन धरि हर्ष अपार १८१

मूढ मति ठे माहरी, कवि मत करजो हास ।  
कृपा करी मुऊ ऊपरे, शोधी करजो खास ॥१७॥  
संवत् शोल वाशट्टि ए, वैशाख पूनम जोय ।  
वार गुरुसहि दिन जलो, एह संवत्सर होय ॥१७॥  
नयर उज्जेणीमां वली, आत्मशिक्षा नाम ।  
मन ज्ञाव धरिने तिहां करी, सिधां वंठित काम ॥१७॥  
एक शत एंशी पांच ए, दोहा अति अजिराम ।  
जणे गुणे जे सांजले, तेह लहे शिवगाम ॥१७॥

इति श्रीआत्मशिक्षाभावना ।

अथ श्रीउपदेश सित्तेरी प्रारम्भ ।

उत्पत्ति जो जो आपणी, मन मांहि विमास ॥  
गरजावासे जीवरो, वसियो नव मास ॥ उत्पत्ति-  
जो जो आपणी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ नारी-  
तणे नाजि तले, जिन वचने जोय ॥ फूल तणी-  
जिम नालिका, तामे नारी ठे दोय ॥ उ० ॥ १ ॥

तसु तले योनि कहीये, वर फूल समान ॥ आंब-  
तणी मांजर जिश्यो, तिहां मांस प्रधान । उ० ॥ ३ ॥  
रुधिर स्रवे तिण ठामथी, ऋतुकाल सदैव ॥ रुधिर-  
शुक्र जोगे करी, तिहां ऊपजे जीव ॥ उ० ॥ ४ ॥  
जे अपावन पवने करी, वासित दुरगंध ॥ तिणे-  
थानक तुं ऊपनो, हवे हूओ मदंध ॥ उ० ॥ ५ ॥  
नाली वांस तणी घणुं, नरिये रू घाल ॥ ताती-  
लोह शीलाक ते, जाले ततकाल ॥ उ० ॥ ६ ॥  
तिम महिलानी योनिमें, ठे नव लख जीव ॥ पुरुष-  
प्रसंगे ते सहु, मरी जाय सदैव ॥ उ० ॥ ७ ॥  
उपजे नर नारी मले, पंचेंद्रिय जेह ॥ तेह तणी-  
संख्या नहिं, तजो कारज एह ॥ उ० ॥ ८ ॥ नव-  
लख जीव टके तिहां, उत्कृष्टी वार ॥ जीव जघ-  
न्यपणे टके, एक दो त्रण चार ॥ उ० ॥ ९ ॥ जीव-  
जघन्य तिहां रहे, मुहूरत परिमाण ॥ चार वर-  
सनी स्थिति तिहां, उत्कृष्टी जाण ॥ उ० ॥ १० ॥

तिणे गरजे कोश जीवमो, इम कहे जगदीश ॥  
 फरी मरी आवे तो रहे, संवत्सर चौवीश ॥ उ०  
 ॥११॥ महिला वरस पंचावने, कहिये निर्वीज ॥  
 पंचोतरे वरस पठे, थाए पुरुष अवीज ॥ उ० ॥१२॥  
 जिमणि कूखे नर वसे, तिम वामी नार ॥ वच्चे-  
 नपुंसक जाणिये, जिनवचने विचार ॥ उ० ॥१३॥  
 हवेसामान्य पणे इहां, आव्यो गर्जावास ॥ सात-  
 दिवस ऊपर रहे, नरगति नवमास ॥ उ० ॥१४॥  
 आठ वरस तिर्यच् रहे, उत्कृष्टो काल ॥ गर्जावा-  
 से नोगव्या, इम बहु जंजाल ॥ उ० ॥ १५ ॥ का-  
 र्मणकाये करि लीयो, पहिलो ते आहार ॥ शुक्र-  
 अने शोणित तणो, नहिं जूठ लगार ॥ उ० ॥१६॥  
 पर्यापति पूरी नही, तिहां विसवा वीश ॥ तिणे-  
 आहारे तनु थयो, औदारिक अरु मीस ॥ उ० ॥  
 १७ ॥ पवन आवे उदरथकी, ते उपजावे अंग ॥  
 अग्नि करे थिर तेहने, जल सुरस सुरंग ॥ उ० ॥

१७ ॥ कठिनपणुं पृथिवी रचे, अवगाह आकाश ॥  
 पांचे चूत शरीरनो, एम करे प्रकाश ॥ उ० ॥१९॥  
 वार मुहूर्त्त ऋतु पठे, विदसे नर नार ॥ गर्ज तणी-  
 उत्पत्ति तिहां, नही अवर प्रकार ॥ उ० ॥ २० ॥  
 कलिल हुवे दिन सातमें, खरबुद दिन सात ॥  
 खरबुदथी पेशी वधे, घन मांस कहात ॥ उ० ॥२१॥  
 मांस तणी गोटी हुवे, अमृतालीश टंक ॥ प्रथम-  
 मासे जिनवर कहे, मन म धरो शंक ॥ उ० ॥२२॥  
 रुधिर मांस बीजे हुवे, हवे त्रीजे मास ॥ कर्म-  
 तणे योगे करी, माता ने मन आश ॥ उ० ॥२३॥  
 चोथे मासे मातना, परिणमे सहु अंग ॥ हाथ-  
 अने पग पांचमे, तिम मस्तक संग ॥ उ० ॥२४॥  
 पित्त रुधिर ठठे पने, सातमे इम संच ॥ नव ध-  
 मणी नस सातशे, पेशी सय पंच ॥ उ० ॥ २५ ॥  
 रोमराइ पण सातमे, सानी तिन क्रोरु ॥ उपजे-  
 ऊणा केटले, इम आगम जोरु ॥ उ० ॥ २६ ॥

आठमे मासे नीपनुं, एम सकल शरीर ॥ उंधे  
शिर वेदन सहे, जंपे श्री जिन वीर ॥ उ० ॥ १९ ॥  
शोणित शुक्र संक्षेपमा, लघुने वदि नीत ॥ वात-  
पित्त कफ गर्ज में, ए थाये झण रीत ॥ उ० ॥ २० ॥  
मात तणी झूटी लगे, बालकनुं नाल ॥ रस आ-  
हार तणो तिहां, आवे ततकाल ॥ उ० ॥ २१ ॥  
जननी ले आहार ते, जाए नामो नारु ॥ रोम-  
झंडी नख चख वधे, तिम मज्जा ने हारु ॥ उ०  
॥ २२ ॥ सविहुं अंगे उद्धसे, सर्वांग आहार ॥  
कवल आहार करे नही, गर्जे झस्यो विचार ॥ उ०  
॥ २३ ॥ ते गर्जे किण जीवने, थाय ज्ञान विजंग ॥  
अथवा अवधि कहीजिये, तिणे ज्ञान प्रसंग ॥  
उ० ॥ २४ ॥ कटक करी वैक्रिय पणे, जूजी नरके-  
जाय ॥ को जिनवचन सुणी करी, मरी सुर पण-  
थाय ॥ उ० ॥ २५ ॥ उंधे मुखे गुमा हिये, सहेतो-  
वहु पीरु ॥ दृष्टि आगल विहुं हाथशुं, रहे मूठी

नीरु ॥ ३० ॥ ३४ ॥ नर विण वस्त्र जलादिके,  
उपजे ओधान ॥ अथवा बिहूं नारी मढ्यां, कद्यो  
गर्भ विधान ॥ ३० ॥ ३५ ॥ कोई उत्तम चिंतवे,  
देखी दुःख राश ॥ पुण्य करुं परो नीकली, नावुं-  
गर्जावास ॥ ३० ॥ ३६ ॥ उंठ कोमी सूई अंग-  
मां, कोई चांपे समकाल ॥ तिणथी गर्भमां अ-  
ठगुणी, सहे वेदना बाल ॥ ३० ॥ ३७ ॥ माता-  
चूखी चूखीओ, सुखिणी सुख थाय ॥ माता सूते-  
ते सुवे, परवश दिन जाय ॥ ३० ॥ ३८ ॥ गर्भथकी-  
दुःख लखगुणुं, जनमे जिण वार ॥ जनम थये-  
दुःख विसखुं, धिग् मोह विकार ॥ ३० ॥ ३९ ॥  
उपज्यो अशुचि पणे तिहां, मल मूत्र कलेश ॥ पिंरु-  
अशुचि करी पूरियो, नवि शुचि लव लेश ॥ ३० ॥  
४० ॥ तुरत रुदन करतो थको, जनमे जिण वार ॥  
माता पयोधर मुख ठवे, पिये दूध तेवार ॥ ३० ॥  
४१ ॥ दीसे दिन दिन दीपतो, करे रंग अपार ॥



आठमे मासे नीपनुं, एम सकल शरीर ॥ उंधे-  
शिर वेदन सहे, जंपे श्री जिन वीर ॥ उ० ॥ २७ ॥  
शोणित शुक्र संक्षेपमा, लघुने वरि नीत ॥ वात-  
पित्त कफ गर्ज में, ए थाये इण रीत ॥ उ० ॥ २८ ॥  
मात तणी झूटी लगे, बालकनुं नाद ॥ रस आ-  
हार तणो तिहां, आवे ततकाल ॥ उ० ॥ २९ ॥  
जननी ले आहार ते, जाए नामो नाम ॥ रोम-  
झंडी नख चख वधे, तिम मज्जा ने हारु ॥ उ०  
॥ ३० ॥ सविहुं अंगे उद्धसे, सर्वांग आहार ॥  
कवल आहार करे नही, गर्जे इस्यो विचार ॥ उ०  
॥ ३१ ॥ ते गर्जे किण जीवने, थाय ज्ञान विजंग ॥  
अथवा अवधि कहीजिये, तिणे ज्ञान प्रसंग ॥  
उ० ॥ ३२ ॥ कटक करी वैक्रिय पणे, जूकी नरके-  
जाय ॥ को जिनवचन सुणी करी, मरी सुर पण-  
थाय ॥ उ० ॥ ३३ ॥ उंधे मुखे गुमा हिये, सहेतो-  
वहु पीरु ॥ दृष्टि आगल विहुं हाथशुं, रहे मूठी

नीरु ॥ उ० ॥ ३४ ॥ नर विण वस्त्र जलादिके,  
उपजे ओधान ॥ अथवा विहूं नारी मढ्यां, कह्यो  
गर्ज विधान ॥ उ० ॥ ३५ ॥ कोई उत्तम चिंतवे,  
देखी दुःख राश ॥ पुण्य करुं परो नीकली, नाबुं-  
गर्जावास ॥ उ० ॥ ३६ ॥ उंठ कोनी सूई अंग-  
मां, कोई चांपे समकाल ॥ तिणथी गर्जमां अ-  
ठगुणी, सहे वेदना बाल ॥ उ० ॥ ३७ ॥ माता-  
जूखी जूखीओ, सुखिणी सुख थाय ॥ माता सूते-  
ते सुवे, परवश दिन जाय ॥ उ० ॥ ३८ ॥ गर्जथकी-  
दुःख लखगुणुं, जनमे जिण वार ॥ जनम थये-  
दुःख विसस्युं, धिग् मोह विकार ॥ उ० ॥ ३९ ॥  
उपज्यो अशुचि पणे तिहां, मल मूत्र कलेश ॥ पिंरु-  
अशुचि करी पूरियो, नवि शुचि लव लेश ॥ उ० ॥  
४० ॥ तुरत रुदन करतो थको, जनमे जिण वार ॥  
माता पयोधर मुख ठवे, पिये दूध तेवार ॥ उ० ॥  
४१ ॥ दीसे दिन दिन दीपतो, करे रंग अपार ।

लाम कोरु माता पिता, पूरे सुविचार ॥ उ० ॥ ४१ ॥  
 बिद्र बारह नारीने, नरनां नव जाण ॥ रात दिवस-  
 वहेतां रहे, चेतो चतुर सुजाण ॥ उ० ॥ ४३ ॥ सात-  
 धातु साते त्वचा, ठे सातशे नाम ॥ नवशे नारां ठे-  
 पिंरुमां, तिम त्रणशे हारु ॥ उ० ॥ ४४ ॥ संधि एक-  
 सो साठ ठे, सत्तोतेर सो मर्म ॥ तिन दोष पेशी  
 पांचशे, ढांक्यां ठे चर्म ॥ उ० ॥ ४५ ॥ रुधिर शेर  
 दश देहमें, पेसाव सरीष ॥ शेर पांच चरवी तिहां,  
 दोय शेर पूरीष ॥ उ० ॥ ४६ ॥ पित्त टांक चोशठ-  
 ठे, वीरज वत्रीश ॥ टांक वत्रीश सलेपमा, जाणे  
 जगदीश ॥ उ० ॥ ४७ ॥ इण परिमाण थकी जदा,  
 ओठो अधिको थाय ॥ व्यापे रोग शरीर में, नवि-  
 चले तव काय ॥ उ० ॥ ४८ ॥ पोष्यो पहिले दाय-  
 के, इम वाध्यो अंग ॥ खानं पान नूषण जलां, करे-  
 नव नव रंग ॥ उ० ॥ ४९ ॥ हवे वीजे दशके जणे,  
 विद्या विविध प्रकार ॥ त्रीजे दशके तेहने, जाग्यो-

काम विकार ॥ उ० ॥ ५० ॥ जिण थानक तुं-  
ऊपन्यो, तिणमें मन जाय ॥ चोथे दशके धन-  
तणा, करे कोरि उपाय ॥ उ० ॥ ५१ ॥ पहोतो-  
दशके पांचमे, मनमां ससनेह ॥ वेटा वेटी ने-  
पोतरा, परणावे तेह ॥ उ० ॥ ५२ ॥ ठठे दशके-  
प्राणियो, वसी परवश थाय ॥ जरा आवी यौवन-  
गयुं, तृष्णा तोय न जाय ॥ उ० ॥ ५३ ॥ आठ्यो-  
दशके सातमे, हवे प्राणी तेह ॥ बल जांग्युं बूढो-  
श्रयो, नारी न धरे नेह ॥ उ० ॥ ५४ ॥ आठमे-  
दशके सोसलो, खुलीया सहु दांत ॥ कर कंपावे-  
शिर धुणे, करे फोकट वात ॥ उ० ॥ ५५ ॥ नवमे-  
दशके प्राणियो, तन शक्ति न कांय ॥ साले-  
वचन सहू तणां, दिन जूरतां जाय ॥ उ० ॥ ५६ ॥  
खाट पड्यो खूं खूं करे, सुगालो देह ॥ हाल-  
हुकम हाले नही. दिये परिजन ठेह ॥ उ० ॥  
५७ ॥ आंख गले वे परु मिले, परे मुहके लाल ।

बेटा बेटा ने बहू, न करे संजाल ॥ ३० ॥ ५७ ॥  
दशमे दशके आवियो, तव पूरी आय ॥ पुण्य-  
पाप फल जोगवी, प्राणी परजव जाय ॥ ३० ॥ ५८ ॥  
दश दृष्टांते दोहिलो, लही नरजव सार ॥ श्री-  
जिन धर्म समाचरे, ते पामे जवपार ॥ ३० ॥ ६० ॥  
तरुण पणे जे तप तपे, पाले निर्मल शील ॥ ते-  
संसार तरी करी, लहे अविचल छील ॥ ३० ॥  
६१ ॥ कोमी रतन कवमी सटे, कांङ्गमे रे गमार ॥  
धर्म विना ए जीवने, नही को आधार ॥ ३० ॥  
६२ ॥ काया माया कारिमी, कारिमो परिवार ॥  
तन धन जौवन कारिमो, साचो धर्म संसार  
॥ ३० ॥ ६३ ॥ चउदे राज प्रमाण ए, ठे लोक-  
महंत ॥ जनम मरण करी फरसीयो, जीव-  
वार अनंत ॥ ३० ॥ ६४ ॥ आप स्वारथीयो सहु,  
नही केहनो कोय ॥ निज स्वारथ विण पूगतां,  
सुत पण रिपु होय ॥ ३० ॥ ६५ ॥ जरा न आवे-

जिहां लगे, जिहां लगे सब शरीर ॥ धर्म करो  
जीव तिहां लगे, होइ साहस धीर ॥ उ० ॥ ६६ ॥  
आरज देश लह्यो हवे, लाधो गुरु संजोग ॥ अंग  
थकी आलस तजो, करो सुकृत संजोग ॥ उ० ॥  
६७ ॥ श्री नेमिराज तणी परे, चेतो चित्त मांहि ॥  
स्वारथनो सहु को सगो, कोइ किणरो नांहि ॥  
उ० ॥ ६८ ॥ जोग संजोग तजी सहु, थया जे  
आणगार ॥ धन धन तसु माता पिता, धन धन  
तस अवतार ॥ उ० ॥ ६९ ॥ सुरतरु सुरमणि सा-  
रिखो, सेवो श्री जिनधर्म ॥ जिणथी सुख संपत्ति  
वधे, कीजे तेहज कर्म ॥ उ० ॥ ७० ॥ तंदूलि-  
व्यालीमें अठे, एहनो अधिकार ॥ तिणथी उरू-  
रीने कह्यो, नही फूठ लगार ॥ उ० ॥ ७१ ॥

॥ कलश ॥

एह जैनधर्म विचार सांचली, लहिये संजम चार ए ॥  
वली सिंहनी परे सदा पाले, नियम निरतिचार ए ॥

संसारनां सुख जोगवी, ते लहे जवपार ए ॥

श्रीरत्नहर्षसु शिष्यरंगे, इम कहे श्रीसार ए ॥ ७२ ॥

इति गर्भवेली । जीवनी उत्पत्तिनुं स्तवन संपूर्ण ।

॥ अथ पद्मावती आराधना प्रारंभ ॥

हवे राणी पदमावती, जीवराशि खमावे ॥

जाण पाणुं जग ते जलुं, इण वेला आवे ॥ १ ॥

ते मुऊ मिच्छामि दुक्कमं, अरिहंतनी साख ॥ जे

में जीव विराधिया, चउराशी लाख ॥ ते० ॥ २ ॥

सात लाख पृथिवीतणा, साते अप्काथ ॥ सात

लाख तेजकायना, साते वली वाय ॥ ते० ॥ ३ ॥

दशं प्रत्येक वनस्पति, चौदह साधारण ॥ वीति-

चउरिंदी जीवना, वे वे लाख विचार ॥ ते० ॥ ४ ॥

देवता तिर्यच नारकी, चार चार प्रकाशी ॥ चउ

दह लाख मनुष्यना, ए लाख चोराशी ॥ ते० ॥ ५ ॥

इण जे परजे सेवियां, जे पाप अठार ॥ त्रिविध-

त्रिविध करी परिहरुं, दुर्गतिनां दातार ॥ ते०॥६॥  
हिंसा कीधी जीवनी, बोध्या मृषावाद ॥ दोष  
अदत्तादानना, मैथुन उन्माद ॥ ते० ॥ ७ ॥ परि-  
ग्रह मेढ्यो कारिमो, कीधो क्रोध विशेष ॥ मान  
माया लोभ में कीया, वली राग ने द्वेष ॥ ते०  
॥ ८ ॥ कलह करी जीव दूहव्या, दीधां कूमां  
कलंक ॥ निंदा कीधी पारकी, रति अरति निशंक  
॥ ते० ॥ ९ ॥ चारु कीधी चोतरे कीधो थापण-  
भोसो ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्मनो, जलो आण्यो जरो  
सो ॥ ते० ॥ १० ॥ खाटकीने जवे में कीया, जीव  
नानाविध घात ॥ चलीमारजवे चरकलां, मास्या  
दिन रात ॥ ते० ॥ ११ ॥ काजी मुद्वाने जवे, पढी  
मंत्र कठोर ॥ जीव अनेक जज्ञे कीया, कीधां  
पाप अधोर ॥ ते० ॥ १२ ॥ माठीने जवे माठलां,  
जाढ्यां जलवास ॥ धीवर नील कोली जवे, मृग  
पाड्या पास ॥ ते० ॥ १३ ॥ कोटवालने जवे ॥



कीया, आकरा करदंरु ॥ वंदीवानं मराविया,  
 कोरमा ठमी दंरु ॥ ते० ॥ १४ ॥ परमाधामीने  
 जवे, दीधां नारकी दुःख ॥ ठेदन जेदन वेदना,  
 तामन अति तिख ॥ ते० ॥ १५ ॥ कुंजारनेजवे-  
 में किया, नीजाह पचाव्या ॥ तेली जवे तिल  
 पीलिया, पापे पिरु जराव्या ॥ ते० ॥ १६ ॥ हाली  
 जवे हल खेमीयां, फाड्यां पृथ्वीनां पेट ॥ सूरु  
 निदान घणां किया, दीधां बलद चपेट । ते०  
 ॥ १७ ॥ मालीने जवे रोपिया, नानाविध वृक्ष ॥  
 मूल पत्र फल फूलनां, लागं पाप ते लक्ष ॥ ते०  
 ॥ १८ ॥ अधोवाइयाने जवे, जख्या अधिका चार ॥  
 पोठी पूठे कीमा पड्या, दया नाणी लगार ॥ ते०  
 ॥ १९ ॥ ठीपाने जवे ठेतस्या, कीधां रंगण पास ॥  
 अग्नि आरंज कीधा घणा, धातुवाद अन्यास ॥  
 ते० ॥ २० ॥ शूरपणे रण जूकता, माख्यां माण-  
 सवृंद ॥ मदिरा मांस माखण जख्यां, खाधां मूल

ने कंद ॥ ते० ॥ २१ ॥ खाण खणावी धातुनी,  
पाणी उद्वेच्यां ॥ आरंज कीधा अतिघणा, पोते  
पापज संच्यां ॥ ते० ॥ २२ ॥ कर्म अंगार कीया  
वली, दरमें दव दीधा ॥ सम खाधा वीतरागना,  
कूमा कोसज कीधा ॥ ते० ॥ २३ ॥ विद्वलीजवे  
उंदर लीया, गिरली हत्यारी ॥ मूढ गमार तणे  
जवे, में जू लीख सारी ॥ ते० ॥ २४ ॥ चारुचुंजा  
तणे जवे, एकेंद्रिय जीव ॥ ज्वारि चणा गहूं शे-  
किया, पांस्तां रीव ॥ ते० ॥ २५ ॥ खांरुण पीसण-  
गारना, आरंज अनेक ॥ रांधण इंघण अग्निनां  
कीधां पाप उदेक ॥ ते० ॥ २६ ॥ विकथा चार  
कीधी वली, सेव्या पांच प्रमाद ॥ इष्टवियोग  
पाड्या कीया, रुदन विपवाद ॥ ते० ॥ २७ ॥ साधु  
अने श्रावक तणां, व्रत लहीने जांग्यां ॥ मूल अने  
उत्तर तणां, मुज झूपण लाग्यां ॥ ते० ॥ २८ ॥ साप  
वीठी सिंह चीवरा, शकराने समली ॥ हिंसक

जीव तणे जवे, हिंसा कीधी सवली ॥ ते०॥११॥  
सूवावनी दूषण घणां, वली गर्ज गलाव्या ॥ जी-  
वाणी ढोढ्यां घणां, शील व्रत चंजाव्यां ॥ ते०॥१२॥  
जव अनंत जमतां थकां, कीधा देह संबंध ॥  
त्रिविध त्रिविध करी वोसिरुं, तिणशुं प्रतिबन्ध  
॥ ते० ॥ ३१ ॥ जव अनंत जमतां थकां, कीधा  
परिग्रह संबंध ॥ त्रिविध त्रिविध करी वोसिरुं,  
तिणशुं प्रतिबन्ध ॥ ते० ॥ ३२ ॥ जव अनंत जमतां  
थकां, कीधा कुटुंबसंबंध ॥ त्रिविध त्रिविध करी  
वोसिरुं, तिणशुं प्रतिबंध ॥ ते० ॥ ३३ ॥ इणि परे  
इहजव परजवे, कीधां पाप अखत्र ॥ त्रिविध  
त्रिविध करि वोसिरुं, करुं जन्म पवित्र ॥ ते०॥३४॥  
एणि विधे ए आराधना, जावे करशे जेह ॥ समय  
सुंदर कहे पापथी, वली वूटशे तेह ॥ ते० ॥ ३५ ॥  
राग बेरामी जे सुणे, एह त्रीजी ढाल ॥ समय  
सुंदर कहे पापथी, वूटे ततकाल ॥ ते० ॥ ३६ ॥

॥ अथ श्री ह्यमाठनीशी प्रारंभ ॥

आदर जीव ह्यमागुण आदर, म करिश  
रागने द्वेष जी ॥ समताये शिव सुख पामीजे,  
क्रोधे कुगति विशेष जी ॥ आ० ॥ १ ॥ समता  
संजम सार सुणी जे, कल्पसूत्रनी साख जी ॥  
क्रोध पूर्वकोनि चारित्र वाले, जगवंत इणी परे  
नाख जी ॥ आ० ॥ २ ॥ कुण कुण जीव तस्या  
उपसमथी, सांचल तुं दृष्टांत जी ॥ कुण कुण  
जीव जभ्या जवमांहे, क्रोध तणे विरतंत जी ।  
आ० ॥ ३ ॥ सोमल ससरे शीश प्रजाद्वयुं, वांधी  
माटीनी पाल जी ॥ गजसुकुमाल ह्यमा मन  
धरतो. मुगति गयो ततकाल जी ॥ आ० ॥ ४ ॥  
कुलबालुओ साधु कहातो, कीधो क्रोध अपार  
जी ॥ कोणिकनी गणिका वश पकियो, रक्तकियो  
संसार जी ॥ आ० ॥ ५ ॥ सोवनकार करी अति  
वेदन, वाध्रशुं वींटियुं शीश जी ॥ मेतारज रुणि

मुक्ति पोहोतो, उपशम एह जगीश जी ॥ आ०  
॥ ६ ॥ कुरु कुरु वे साधु कहाता, रह्या कुणाला  
खाल जी ॥ क्रोध करी ते कुगते पहोता, जनम  
गमायो आल जी ॥ आ० ॥ ७ ॥ कर्म खपावी  
मुगते पहोता, खंधक सूरिना शिष्य जी ॥ पालक  
पापीये घाणी पीढ्या, नाणी मनमां रीश जी ॥  
आ० ॥ ८ ॥ अच्चंकारी नारी अचुकी, ठोड्या  
पीयुशुं नेह जी ॥ ववर कुल सह्यां दुःख बहुलां,  
क्रोध तणां फल एह जी ॥ आ० ॥ ९ ॥ वाघणे  
सर्व शरीर विलुख्यु, ततक्षण ठोड्यां प्राण जी ॥  
साधु सुकोशल शिव सुख पाम्या, एह दामा गुण  
जाण जी ॥ आ० ॥ १० ॥ कुण चमाल कहीजे  
विहुमें, निरति नही कहे देव जी ॥ रुपि चमाल  
कहीजे वरुतो, टालो वेढनी टेव जी ॥ आ० ॥  
११ ॥ सातमी नरक गयो ते ब्रह्मदत्त, काढी  
ब्राह्मण आंख जी ॥ क्रोध तणां फल करुआं

जाणी, राग द्वेष द्यो नाख जी ॥ आ० ॥ १२ ॥  
खंधक रुषिनी खाल उतारी, सह्यो परिसह जेण जी  
॥ गरजवासना दुःखथी बूढ्यो, सबल क्षमा गुण तेण  
जी ॥ आ० ॥ १३ ॥ क्रोध करी खंधक आचारिज,  
हुओ अग्निकुमार जी ॥ दंरुक नृपनो देश प्रजा-  
द्वयो, जमशे जवह मजार जी ॥ आ० ॥ १४ ॥ चंद्र-  
रौद्र आचारिज चलतां, मस्तक दीध प्रहार जी ॥  
क्षमा करंतां केवल पास्यो, नव दीक्षित अणगार-  
जी ॥ आ० ॥ १५ ॥ पांच वार रुषिने संताप्यो,  
आणी मनमां द्वेष जी ॥ पंच जव सीम दह्यो  
नंद नाविक, क्रोध तणां फल देख जी ॥ आ०  
॥ १६ ॥ सागरचंद्रनुं शीस प्रजाली, निशि नज-  
सेन नरिंद जी ॥ समता जाव धरी सुरलोके, प-  
हुतो परमानंदजी ॥ आ० ॥ १७ ॥ चंदना गुरुणीये  
घणुं निचंठी, धिग् धिग् तुज अवतार जी ॥ मृगा-  
वती केवलसिरि पामी, एह क्षमा अधिकार जी

॥ आ० ॥ १८ ॥ सांव प्रहृम्न कुंवर संताप्यो,  
 कृष्ण द्वैपायन साह जी ॥ क्रोध करी तपनुं फल  
 हास्यो, कीधो द्वारिका दाह जी ॥ आ० ॥ १९ ॥  
 जरतने मारण मूठी उपानी, बाहूवल वलवंत  
 जी ॥ उपशम रस मनमांहे आणी, संजम ले मति  
 मंत जी ॥ आ० ॥ २० ॥ काउसग्गमां चक्रियो  
 अतिक्रोधे, प्रश्नचंद्र रुषिराय जी ॥ सातमी  
 नरक तणां दल मेढ्यां, कमुआं तेण कषाय जी ॥  
 आ० ॥ २१ ॥ आहारमांहे क्रोधे रुषि शूक्यो,  
 आण्यो अमृत चाव जी ॥ कूरगरुये केवल पा-  
 म्युं, द्दमातणे परचाव जी ॥ आ० ॥ २२ ॥ पार्श्व-  
 नाथने उपसर्ग कीधा, कमठ जवांतर धीठ जी ॥  
 नरक तिर्यच तणां दुःख लाधां, क्रोध तणां फल  
 दीठ जी ॥ आ० ॥ २३ ॥ द्दमावंत दमदंत मुनी-  
 श्वर, वनमां रह्यो काउसग्ग जी ॥ कौरव कटक  
 हण्यो ईटाले, त्रोट्या कर्मना वर्ग जी ॥ आ० ॥

२४ ॥ सय्यापालक काने तरुओ, नाम्यो क्रोध  
उदीर जी ॥ बेहु काने खीला ठोकाणा, नवि  
वूटा महावीर जी ॥ आ० ॥ २५ ॥ चार हत्यानो  
कारक हुतो, दृढप्रहार अतिरेक जी ॥ क्षमा  
करीने मुक्ते पहोतो, उपसर्ग सह्या अनेक जी ॥  
आ० ॥ २६ ॥ पहुरमांहे उपजतो हास्यो, क्रोधे  
केवल नाण जी ॥ देखो श्रीदमसार मुनीशर,  
सूत्र गुण्यो उठाण जी ॥ आ० ॥ २७ ॥ सिंह  
गुफावासी ऋषि कीधो, थूलिजद्र ऊपर कोप जी ॥  
वेश्या बचन गयो नैपाले, कीधो संजम लोप जी  
॥ आ० ॥ २८ ॥ चंद्रावतंसक काउसग्ग रहियो.  
क्षमा तणो जंमार जी ॥ दासी तेल जस्यो निशि  
दीवो, सुरपदवी लहे सार जी ॥ आ० ॥ २९ ॥  
इम अनेक तर्या त्रिचुवनमें, क्षमागुणे जवि जीव  
जी ॥ क्रोध करी कुगते ते पहोता, पामंता मुख  
रीव जी ॥ आ० ॥ ३० ॥ विप हाजाहल



॥ आ० ॥ १० ॥ सांव प्रहृम्न कुंवर संताप्यो,  
 कृष्ण द्वैपायन साह जी ॥ क्रोध करी तपनुं फल  
 हास्यो, कीधो द्वारिका दाह जी ॥ आ० ॥ १९ ॥  
 चरतने मारण मूठी उपामी, वाहूचल बलवंत  
 जी ॥ उपशम रस मनमांहे आणी, संजम ले मति  
 मंत जी ॥ आ० ॥ २० ॥ काउसगमां चक्रियो  
 अतिक्रोधे, प्रश्नचंद्र ऋषिराय जी ॥ सातमी  
 नरक तणां दल मेढ्यां, कमुआं तेण कषाय जी ॥  
 आ० ॥ २१ ॥ आहारमांहे क्रोधे ऋषि शूक्यो,  
 आयो अमृत जाव जी ॥ कूरगमुये केवल पा-  
 म्युं, द्दमातणे परजाव जी ॥ आ० ॥ २२ ॥ पार्श्व-  
 नाथने उपसर्ग कीधा, कमठ जवांतर धीठ जी ॥  
 नरक तिर्यच तणां दुःख लाथां, क्रोध तणां फल  
 दीठ जी ॥ आ० ॥ २३ ॥ द्दमावंत दमदंत मुनी-  
 श्वर, वनमां रह्यो काउसग जी ॥ कौरव कटक  
 हण्यो ईटाळे, त्रोट्या कर्मना वर्ग जी ॥ आ० ॥

१४ ॥ सय्यापालक काने तरुओ, नाम्यो क्रोध  
उदीर जी ॥ बेहु काने खीला ठोकाणा, नवि  
बूटा महावीर जी ॥ आ० ॥ १५ ॥ चार हत्यानो  
कारक हुतो, दृढप्रहार अतिरेक जी ॥ दमा  
करीने मुक्ते पहोतो, उपसर्ग सह्या अनेक जी ॥  
आ० ॥ १६ ॥ पहुरमाहे उपजतो हास्यो, क्रोधे  
केवल नाण जी ॥ देखो श्रीदमसार मुनीशर,  
सूत्र गुण्यो उठाण जी ॥ आ० ॥ १७ ॥ सिंह  
गुफावासी ऋषि कीधो. थूलिजद्र ऊपर कोप जी ॥  
वेश्या दचन गयो नैपाले. कीधो संजम लोप जी  
॥ आ० ॥ १८ ॥ चंद्रावतंसक काउसग्ग रहियो.  
दमा तणो जंमार जी ॥ दासी तेल जस्यो निशि  
दीवो. सुरपदवी लहे सार जी ॥ आ० ॥ १९ ॥  
इम अनेक तर्या त्रिजुवनमें. दमागुणे जवि जीव  
जी ॥ क्रोध करी कुगते ते पहोता. पारुंता मुख  
रीव जी ॥ आ० ॥ २० ॥ विप हालाहल कह

परिवार ॥ ज्ञानगुणे करी आगला जी, तपसी मा-  
 रग सार ॥ ६ ॥ ३० ॥ नर नारी बहु तिहां मिला  
 जी, साधू वांदण कोरु ॥ केइ पाला केइ पालख्यां  
 जी, वंदे होमाहोरु ॥ ७ ॥ ३० ॥ खंधक कुंवर  
 पण आवीयो जी, बेगो परखदा मांय ॥ मुनिवर  
 दीधी देशना जी, सघलाने चित्तलाय ॥ ८ ॥  
 ॥ ३० ॥ आगारने अणगारना जी, धर्म तणा दोय  
 जेद ॥ समकित सहित व्रत आदरो जी, राखो  
 मुगति उमेद ॥ ९ ॥ ३० ॥ राज अणी जल-  
 विंदुओं जी, पाकूं पीपल पान ॥ अश्विर तन धन  
 ए आउखुं जी, तजो कपट ने मान ॥ १० ॥ ३० ॥  
 विहमे सुतने बांधवो जी, विहमे सज्जन परम ॥  
 कुटुंब पण विहमे सहुजी, नवि विहमे जिनधर्म ॥  
 ११ ॥ ३० ॥ आव्यो ठे जीव एकिलो जी, वली एकि-  
 लो जी जाय ॥ बांध्यां कर्म जीवे जिस्यां जी, तिस्यां  
 उदय हुवे आय ॥ १२ ॥ ३० ॥ पुण्यजोगे नरजव

॥ अथ श्री खंधकमुनिराजनुं चोढालियुं ॥

॥ ढाल १ ली ॥

नमूं वीर शासन धणी जी, गणधर गोयम  
स्वाम ॥ कथा अनुसारे गायशुं जी, खंधकना  
गुणग्राम ॥ १ ॥ द्दमावंत जोय जगवंतनुं जी  
ज्ञान ॥ ए आंकणी ॥ अति द्दमा अधिकी करी  
जी, संजम धारी जी जान ॥ शिवमारगने कारणे  
जी, रहेता धरमने ध्यान ॥ २ ॥ द्द० ॥ त्वचा  
उतारी देहनी जी, रहेता समताजी जाव ॥  
जिनधर्म कीधो दीपतो जी, महोटा ए मुनिराव  
॥ ३ ॥ द्द० ॥ सावत्थी नगरी शोन्नती जी,  
कनककेतु तिहां जूप ॥ राणी मलयासुंदरी जी,  
खंधक कुंवर अनूप ॥ ४ ॥ द्द० ॥ सघला  
अंगे सुंदरु जी, इंद्री नहीं एक हीण ॥ प्रथम  
वये चढती कला जी, चतुर कला प्रवीण ॥ ५ ॥  
द्द० ॥ विजयसेन गुरु आवीया जी, साधु तणे

विरुद्धो, ते मारे एक वार जी ॥ पण कपाय  
 अनंती वेला, आपे मरण अपार जी ॥ आ० ॥  
 ३१ ॥ क्रोध करंतां तप जप कीधां, न पणे कांई  
 ठाम जी ॥ आप तपे परने संतापे, क्रोधशुं के  
 हो काम जी ॥ आ० ॥ ३२ ॥ क्षमा करंतां खरच  
 न लागे, चांगे क्रोध कलेश जी ॥ अरिहंत देव  
 आराधक थाये, व्यापे सुजस प्रदेश जी ॥ आ०  
 ॥ ३३ ॥ नगरमां है नागोर नगीनो, जिहां  
 जिनवर प्रासादजी ॥ श्रावक लोक वसे अति  
 सुखिया, धर्मतणे परसाद जी ॥ आ० ॥ ३४ ॥  
 क्षमा ठत्रीशी ग्वांते कीधी, आतम पर उपगार  
 जी ॥ सांजलतां श्रावक पण समज्या, उपशम  
 धर्यो अपार जी ॥ आ० ॥ ३५ ॥ जुगप्रधान  
 जिणचंद सूरीशर, सकलचंद तसु शिष्य जी ॥  
 समयसुंदर तसु शिष्य जणे इम, चतुर्विध संघ  
 जगीश जी ॥ ३६ ॥

इति क्षमाछत्रीगी ।

॥ अथ श्री खंधकमुनिराजनुं चोढालियुं ॥

॥ ढाल १ ली ॥

नमूं वीर शासन धणी जी, गणधर गोयम  
स्वाम ॥ कथा अनुसारे गायशुं जी, खंधकना  
गुणग्राम ॥ १ ॥ द्दमावंत जोय जगवंतनु जी  
ज्ञान ॥ ए आंकणी ॥ अति द्दमा अधिकी करी  
जी, संजम धारी जी जान ॥ शिवमारगने कारणे  
जी, रहेता धरमने ध्यान ॥ २ ॥ द्द० ॥ त्वचा  
उतारी देहनी जी, रहेता समताजी चाव ॥  
जिनधर्म कीधो दीपतो जी, महोटा ए मुनिराव  
॥ ३ ॥ द्द० ॥ सावत्थी नगरी शोचती जी,  
कनककेतु तिहां नूप ॥ राणी मलयासुंदरी जी,  
खंधक कुंवर अनूप ॥ ४ ॥ द्द० ॥ सघला  
अंगे सुंदरु जी, इंद्री नही एक हीण ॥ प्रथम  
वये चढती कला जी, चतुर कला प्रवीण ॥ ५ ॥  
द्द० ॥ विजयसेन गुरु आवीया जी, साधु तणे

विरुद्धो, ते भारे एक वार जी ॥ पण कपाय  
 अनंती वेला, आपे मरण अपार जी ॥ आ० ॥  
 ३१ ॥ क्रोध करंतां तप जप कीधां, न पमे कांई  
 ठाम जी ॥ आप तपे परने संतापे, क्रोधशुं के  
 हो काम जी ॥ आ० ॥ ३२ ॥ क्षमा करंतां खरच  
 न लागे, चांगे क्रोरु कलेश जी ॥ अरिहंत देव  
 आराधक थाये, व्यापे सुजस प्रदेश जी ॥ आ०  
 ॥ ३३ ॥ नगरमां है नागोर नगीनो, जिहां  
 जिनवर प्रासादजी ॥ श्रावक लोक वसे अति  
 सुखिया, धर्मतणे परसाद जी ॥ आ० ॥ ३४ ॥  
 क्षमा ठत्रीशी खांते कीधी, आत्म पर उपगार  
 जी ॥ सांचलतां श्रावक पण समज्या, उपशम  
 धर्यो अपार जी ॥ आ० ॥ ३५ ॥ जुगप्रधान  
 जिणचंद सूरेशर, सकलचंद तसु शिष्य जी ॥  
 समयसुंदर तसु शिष्य जणे झम, चतुर्विध संघ  
 जगीश जी ॥ ३६ ॥

इति क्षमाछत्रीगी ।

॥ अथ श्री खंधकमुनिराजनुं चोढालियुं ॥

॥ ढाल १ ली ॥

नमूं वीर शासन धणी जी, गणधर गोयम  
स्वाम ॥ कथा अनुसारे गायशुं जी, खंधकना  
गुणग्राम ॥ १ ॥ द्दमावंत जोय जगवंतनुं जी  
ज्ञान ॥ ए आंकणी ॥ अति द्दमा अधिकी करी  
जी, संजम धारी जी जान ॥ शिवमारगने कारणे  
जी, रहेता धरमने ध्यान ॥ २ ॥ द्द० ॥ त्वचा  
उतारी देहनी जी, रहेता समताजी जाव ॥  
जिनधर्म कीधो दीपतो जी, महोटा ए मुनिराव  
॥ ३ ॥ द्द० ॥ सावत्थी नगरी शोचती जी,  
कनककेतु तिहां नूप ॥ राणी मलयसुंदरी जी,  
खंधक कुंवर अनूप ॥ ४ ॥ द्द० ॥ सघला  
अंगे सुंदरु जी, इंद्री नही एक हीण ॥ प्रथम  
वये चढती कला जी, चतुर कला प्रवीण ॥ ५ ॥  
द्द० ॥ विजयसेन गुरु आवीया जी, साधु तणे



विरुओ, ते मारे एक वार जी ॥ पण कपाय  
 अनंती वेला, आपे मरण अपार जी ॥ आ० ॥  
 ३१ ॥ क्रोध करंतां तप जप कीधां, न परे कांई  
 ठाम जी ॥ आप तपे परने संतापे, क्रोधशुं के  
 हो काम जी ॥ आ० ॥ ३२ ॥ क्षमा करंतां खरच  
 न लागे, चांगे क्रोरु कलेश जी ॥ अरिहंत देव  
 आराधक थाये, व्यापे सुजस प्रदेश जी ॥ आ०  
 ॥ ३३ ॥ नगरमां है नागोर नगीनो, जिहां  
 जिनवर प्रासादजी ॥ श्रावक लोक वसे अति  
 सुखिया, धर्मतणे परसाद जी ॥ आ० ॥ ३४ ॥  
 क्षमा ठत्रीशी खांते कीधी, आतम पर उपगार  
 जी ॥ सांचलतां श्रावक पण समज्या, उपशम  
 धर्यो अपार जी ॥ आ० ॥ ३५ ॥ जुगप्रधान  
 जिणचंद सूरीशर, सकलचंद तसु शिष्य जी ॥  
 समयसुंदर तसु शिष्य जणे इम, चतुर्विध संघ  
 जगीश जी ॥ ३६ ॥

इति क्षमाछत्रीशी ।

॥ अथ श्री खंधकमुनिराजनुं चोढावियुं ॥

॥ ढाल १ ली ॥

नमूं वीर शासन धणी जी, गणधर गोयम  
स्वाम ॥ कथा अनुसारे गायशुं जी, खंधकना  
गुणग्राम ॥ १ ॥ द्दमावंत जोय नगवंतनुं जी  
ज्ञान ॥ ए आंकणी ॥ अति द्दमा अधिकी करी  
जी, संजम धारी जी जान ॥ शिवमारगने कारणे  
जी, रहेता धरमने ध्यान ॥ २ ॥ द्द० ॥ त्वचा  
उतारी देहनी जी, रहेता समताजी नाव ॥  
जिनधर्म कीधो दीपतो जी, महोटा ए मुनिराव  
॥ ३ ॥ द्द० ॥ सावत्थी नगरी शोन्नती जी,  
कनककेतु तिहां नूप ॥ राणी मलयसुंदरी जी,  
खंधक कुंवर अनूप ॥ ४ ॥ द्द० ॥ सघला  
अंगे सुंदरु जी. इंद्री नहीं एक हीण ॥ प्रथम  
वये चढती कला जी, चतुर कला प्रवीण ॥ ५ ॥  
द्द० ॥ विजयसेन गुरु आवीया जी, साधु .

परिवार ॥ ज्ञानगुणे करी आगला जी, तपसी मा-  
 रग सार ॥ ६ ॥ ३० ॥ नर नारी बहु तिहां मिल्ती  
 जी, साधू वांदण कोरु ॥ केइ पाला केइ पालख्यां  
 जी, वंदे होमाहोरु ॥ ७ ॥ ३० ॥ खंधक कुंवर  
 पण आवीयो जी, वेगो परखदा मांय ॥ मुनिवर  
 दीधी देशना जी, सघलाने चित्तलाय ॥ ८ ॥  
 ॥ ३० ॥ आगारने अणगारना जी, धर्म तणा दोय  
 जेद ॥ समकित सहित व्रत आदरो जी, राखो  
 मुगति उमेद ॥ ९ ॥ ३० ॥ मात्त अणी जल-  
 विंडुओं जी, पाकूं पीपल पान ॥ अथिर तन धन  
 ए आउखुं जी, तजो कपट ने मान ॥ १० ॥ ३० ॥  
 विहमे सुतने वांधवो जी, विहमे सज्जन परम ॥  
 कुटुंब पण विहमे सहुजी, नवि विहमे जिनधर्म ॥  
 ११ ॥ ३० ॥ आव्यो ठे जीव एकिलो जी, वली एकि-  
 लो जी जाय ॥ वांध्यां कर्म जीवे जिस्यां जी, तिस्यां  
 उदय हुवे आय ॥ १२ ॥ ३० ॥ पुण्यजोगे नरत्तव

लह्यो जी, सद्गुरुनो संयोग ॥ हवे टालो राखो  
मती जी, तजो जहेर जिम चोग ॥ १३ ॥ ३० ॥  
चारुं गति संसारना जी, लग रही खांचाजी ताण  
चल वस्तु सघली कही जी, निश्चल ठे निरवाण  
॥ १४ ॥ ३० ॥ ओठा सुखने कारणे जी, शुं द्यो  
जंमी रांग ॥ चवचव मांहे काढिया जी, नटुवे  
वाला साग ॥ १५ ॥ ३० ॥ अथिर ए सुख संसा-  
रनां जी, कांइ अबुजो जाद ॥ वचन सुणी सद्-  
गुरु तणां जी, चेतो सुरत संचाल ॥ १६ ॥ ३० ॥  
पंच महाव्रत आदरो जी, श्रावकनां व्रत वार ॥  
कष्ट पड्या गाढा रहो जी, जिम पामो चव पार  
॥ १७ ॥ ३० ॥ धन धान्य घर हाटमी जी, ममता  
म करोजी, कोय ॥ काचा सुखने कारणेजी, हाख्यो  
जनम म खोय ॥ १८ ॥ ३० ॥ सगपण सहु संसा-  
रनां जी, थया अनंती जी वार ॥ मिल मिलने  
विठमी गयां जी, करमज दागां वार ॥ १९ ॥

परिवार ॥ ज्ञानगुणे करी आगला जी, तपसी मा-  
 रग सार ॥ ६ ॥ ३० ॥ नर नारी बहु तिहां मिली  
 जी, साधू वांदण कोरु ॥ केइ पाला केइ पालस्यां  
 जी, वंदे होराहोरु ॥ ७ ॥ ३० ॥ खंधक कुंवर  
 पण आवीयो जी, वेठो परखदा मांय ॥ मुनिवर  
 दीधी देशना जी, सघलाने चित्तलाय ॥ ८ ॥  
 ॥ ३० ॥ आगारने अणगारना जी, धर्म तणा दोय  
 जेद ॥ समकित सहित व्रत आदरो जी, राखो  
 मुगति उमेद ॥ ९ ॥ ३० ॥ मात्र अणी जल-  
 विंदुओं जी, पाकूं पीपल पान ॥ अथिर तन धन  
 ए आउखु जी, तजो कपट ने मान ॥ १० ॥ ३० ॥  
 विहमे सुतने वांधवो जी, विहमे सज्जन परम ॥  
 कुटुंब पण विहमे सहुजी, नवि विहमे जिनधर्म ॥  
 ११ ॥ ३० ॥ आव्यो ठे जीव एकिलो जी, वली एकि-  
 लो जी जाय ॥ वांध्यां कर्म जीवे जिस्यां जी, तिस्यां  
 उदय हुवे आय ॥ १२ ॥ ३० ॥ पुण्यजोगे नरजव

लह्यो जी, सद्गुरुनो संयोग ॥ ह्वे टालो राखो  
मती जी, तजो जहेर जिम जोग ॥ १३ ॥ कृ० ॥  
चारुं गति संसारना जी, लग रही खांचाजी ताण  
चल वस्तु सघली कही जी, निश्चल ठे निरवाण  
॥ १४ ॥ कृ० ॥ थोठा सुखने कारणे जी, शुं घो  
उंकी रांग ॥ जवजव मांहे काढिया जी, नटुवे  
वाला साग ॥ १५ ॥ कृ० ॥ अथिर ए सुख संसा-  
रनां जी, कांइ अबुजो जाल ॥ वचन सुणी सद्-  
गुरु तणां जी, चेतो सुरत संजाल ॥ १६ ॥ कृ० ॥  
पंच महाव्रत आदरो जी, श्रावकनां व्रत वार ॥  
कष्ट पड्या गाढा रहो जी, जिम पामो जव पार  
॥ १७ ॥ कृ० ॥ धन धान्य घर हाटकी जी, ममता  
म करोजी, कोय ॥ काचा सुखने कारणेजी, हास्यो  
जनम म खोय ॥ १८ ॥ कृ० ॥ सगपण सहु संसा-  
रनां जी, थया अनंती जी वार ॥ मिल मिलने  
विठकी गयां जी, करमज लागं वार ॥ १९

परिवार ॥ ज्ञानगुणे करी आगला जी, तपसी मा-  
रग सार ॥ ६ ॥ ॐ ॥ नर नारी बहु तिहां मिली  
जी, साधू वांदण कोरु ॥ केइ पाला केइ पावल्यां  
जी, वंदे होमाहोरु ॥ ७ ॥ ॐ ॥ खंधक कुंवर  
पण आवीयो जी, वेठो परखदा मांय ॥ मुनिवर  
दीधी देशना जी, सघलाने चित्तलाय ॥ ८ ॥  
॥ ॐ ॥ आगारने अणगारना जी, धर्म तणा दोय  
चेद ॥ समकित सहित व्रत आदरो जी, राखो  
मुगति उमेद ॥ ९ ॥ ॐ ॥ मात्र अणी जल-  
विंडुओं जी, पाकूं पीपल पान ॥ अथिर तन धन  
ए आउखुं जी, तजो कपट ने मान ॥ १० ॥ ॐ ॥  
विहरे सुतने वांधवो जी, विहरे सज्जन परम ॥  
कुटुंब पण विहरे सहुजी, नत्रि विहरे जिनधर्म ॥  
११ ॥ ॐ ॥ आव्यो ठे जीव एकिलो जी, वली एकि-  
लो जी जाय ॥ चांध्यां कर्म जीवे जिस्यां जी, तिस्यां  
उदय हुवे आय ॥ १२ ॥ ॐ ॥ पुण्यजोगे नरत्तव

( ४ए )

सदह्यां जी, जली करी कृपा नाथ ॥ २६ ॥ क्षण  
मात पिताने पूढीने जी, लेशुं संजम चार ॥  
वलता मुनिवर इम कहे जी, म करो ढील लगार  
॥ २७ ॥ क्ष० ॥ घरे आवी कहे मातने जी, द्यो  
अनुमति आदेश ॥ संजम लेई हूं सुखी जी.  
काटुं करम कलेश ॥ २८ ॥ क्ष० ॥ वचन सुण्यां  
सुतनां इस्यां जी, धरणि ढली ठे जी माय ॥  
सावधान हुइने कहुं जी, इसी म काढो वात ॥  
कुंवरजी संजम विषम अपार ॥ २९ ॥ संजम  
ठे वच्च दोहिलो जी, जिसी खांमानी जी धार ॥  
पाय उवराणे चालवुं जी, लेवो शुरू आहार ॥३०॥  
कुं० ॥ सं० ॥ सु वचन कु वचन लोकनां जी.  
सहणा पकशे जी मार ॥ राजकुमार सुकुमार  
ठो जी, एह न करणी सार ॥ ३१ ॥ कुं० ॥ सं० ॥  
साधपणुं दोहिलुं कहुं जी. तिणमे फेर न कोय ॥  
कायरने ठे दोहिलुं जी. शूराने नहि होय ॥३२॥



क्षण ॥ सगपण सहु संसारनां जी, स्वारथनां ठेजी  
 एह ॥ जो स्वारथ पूगे नही जी, तटकें तोरु  
 नेह ॥ १० ॥ कण ॥ नरक निगोदमें दुःख सखां  
 जी, ठेदन जेदन अनेक ॥ तो पण धीठा जीवने  
 जी, सुरत नहीं ठे रेक ॥ ११ ॥ कण ॥ ठगवाजी  
 मांकी घणी जी, चामी चुगली जी खाय ॥ करम  
 उदय आयां थकां जी, परे गलामां आय ॥ १२ ॥  
 कण ॥ इस्या दुःखे रुपे नही जी, चेतो तुमे  
 जव्य जीव ॥ ज्ञानादिक आराधीने जी, तुमे  
 ल्यो मुगतिनी नीव १३ ॥ कण ॥ दिलमां दया  
 विचारीने जी, ठांजो जी खांचा ताण ॥ आज्ञा  
 सहित किरिया करो जी, ए जीवित परमाण ॥  
 १४ ॥ क्षण ॥ मुगति तो निश्चें मिले जी, कदा  
 जरे रहे जाय ॥ देवलोक वासो वसे जी, सुख  
 घणां तिण ठाय ॥ १५ ॥ क्षण ॥ वाणी सुणि साधु  
 नणी जी, कुंवर जोड्या वेहु हाथ ॥ वचन तुमारां

सद्व्यां जी, जली करी कृपा नाथ ॥ २६ ॥ क्षण  
मात पिताने पूठीने जी, लेशुं संजम चार ॥  
बलता मुनिवर इम कहे जी, म करो ढील लगार  
॥ २७ ॥ क्षण ॥ घरे आवी कहे मातने जी, द्यो  
अनुमति आदेश ॥ संजम लेई हूं सुखी जी.  
काटुं करम कलेश ॥ २८ ॥ क्षण ॥ वचन सुण्यां  
सुतनां इस्यां जी, धरणि ढली ठे जी माय ॥  
सावधान हुइने कहुं जी, इसी म काढो वात ॥  
कुंवरजी संजम विषम अपार ॥ २९ ॥ संजम  
ठे वचठ दोहिलो जी, जिसी खांमानी जी धार ॥  
पाय उवराणे चाखुं जी, लेवो शुरु आहार ॥३०॥  
कुं ॥ सं ॥ सु वचन कु वचन लोकनां जी.  
सहणा पकशे जी मार ॥ राजकुमार सुकुमार  
ठो जी, एह न करणी सार ॥ ३१ ॥ कुं ॥ सं ॥  
साधपणुं दोहिलुं कहुं जी, तिणमे फेर न कोय ॥  
कायरने ठे दोहिलुं जी, शूराने नहि होय ॥३२॥

कुं० ॥ सं० ॥ उत्तर पमुत्तर बहु हुवा जी, वाप  
 वेटानेजी माय ॥ सूत्रमांहे विस्तार ठेजी, देजो  
 चतुर लगाय ॥ ३३ ॥ कुं० ॥ सं० ॥ चित्तशुं दीधी  
 आझा जी, करी महोटे मंगाण ॥ शिविकामां  
 वेसामीने जी, सोंप्यो साधुने आण ॥ ३४ ॥ ङ० ॥  
 इष्ट अत्यन्त वालो हुंतो जी, स्वामी महारे ए  
 पुत्र ॥ करियो जामण मरणथी जी, सोंप्यो तुम  
 कर सुत ॥ ३५ ॥ ङ० ॥ सिंहपणे व्रत आदरोजी,  
 पालजो सिंहना जेम ॥ घणुं पराक्रम फोरजोजी,  
 मात पिता कहे एम ॥ ३६ ॥ ङ० ॥ इम शीखा-  
 मण देइ करी जी, आया जिण दिशि जाय ॥  
 खंधकने चले चावशूं जी, दीक्षा दीनि मुनि-  
 राय ॥ ३७ ॥ ङ० ॥ आझा मांगी साधु तणी  
 जी, सूत्र अरथ लिया धार ॥ जिन कलपी पणुं  
 आद.स्युं जी, एकलमल अणगार ॥ ३८ ॥ ङ० ॥  
 मिलि शिरदार रायने कळुं जी, ए नानकियो

जी बाल ॥ सिंहादिकना त्रय तणा जी, कर-  
वावो रखवाल ॥ ३९ ॥ ६० ॥ पांचशे जोधा  
बोलावीने जी, दीया कुंवरनेजी लार ॥ ते साधु  
ने खबर नाहिं जी, साथे वहे शिरदार ॥ ४० ॥  
६० ॥ सावत्थि नगरीशुं चालियो जी, कुंती  
नगरी जी जाय ॥ नगरी वहिनोई तणी जी,  
शंका न आणी कांय ॥ ४१ ॥ ६० ॥

॥ दोहा ॥

पांचशे तिण अवसरे, खावा पीवा काज ।  
बली बली चलता रह्या, एकल रह्या मुनिराय ॥१॥  
हवे किम ऊठे गोचरी, उपसर्ग व्यापे केम ।  
एक मना थइ सांजलो, मुनि करे ठे जेम ॥ २ ॥

॥ ढाल २ जी ॥

तिण अवसर मुनिराय, कुंति नगरीमांहे,  
सुकोमल साधु ॥ विहरण त्रिरियां पांगुस्थ्या ॥ १ ॥  
वाजे लूवर जाल, दाजे पग सुकुमाल ॥ सु०

दोपहेराने तावमे ए ॥ २ ॥ निरमोही निरमाय.  
 झरंजा जोवंता जाय ॥ सु० ॥ गज तणी परे गो-  
 चरी ए ॥ ३ ॥ सुसत उतावला नांहि, धीरज  
 धरे मनमांहि ॥ सु० ॥ गयवरनी परे मलप्रता  
 ए ॥ ४ ॥ राय राणी तिणवार, रमतां पासा सार  
 ॥ सु० ॥ महेल तले मुनि आविया ए ॥ ५ ॥  
 पड्यो हे राणीनी दिठ, खंधक महेलनी हेठ ॥  
 सु० ॥ एतो हुवे माहरो वंधुवो ए ॥ ६ ॥ चिंता  
 आवी पिहीर, नयणे बूटं नीर ॥ सु० ॥ विरह  
 व्यापी थई ए ॥ ७ ॥ राजा साहसो जोय, राणी  
 झम किम रोय ॥ सु० ॥ सुखमांहे दुःख किम  
 हुवो ए ॥ ८ ॥ साधुने जावतो देख, राजाने  
 जाग्यो छेप ॥ सु० ॥ ए करम एणे कियां ए ॥ ९ ॥  
 राणी हूंती सुखमांय, रोवानी झण आय ॥ सु० ॥  
 तो ए खवर साधु तणी ए ॥ १० ॥ राय विचारी  
 गैर, जाग्यो पूरव वर ॥ सु० ॥ पाठल जव काचर

तणो ए ॥ ११ ॥ मातुं विचारी राय, मसाण चूमि  
ले जाय ॥ सु० ॥ त्वचा उतारो एहनी ए ॥ १२ ॥  
राजा नफर बोलाय, वेगा जावो धाय ॥ सु० ॥  
इण साधुने पकरी लीयो ए ॥ १३ ॥ मत करजो  
कांइ कांण, ले जायजो समसाण ॥ सु० ॥ सघली  
खाल उतारजो ए ॥ १४ ॥ नफर सुणी इम वाण,  
करी लीधी परमाण ॥ सु० ॥ अजाणचक्र राजा-  
यने ए ॥ १५ ॥ पकड्या मुनिना हाथ, मसाण  
चूमि ले साथ ॥ सु० ॥ खाल उतारवा देहनी  
ए ॥ १६ ॥ माहरो नही ठे दोष, मुनि म करो  
कोइ रोष ॥ सु० ॥ रुप्या रुपज समीकरे ए,  
॥ १७ ॥ मसाण चूमिका मांय, काया दीधी वो-  
सिराय ॥ सु० ॥ चारुं आहार त्यागी दीया ए  
॥ १८ ॥ करमो आवी वन्यो काम, न कहुं आ-  
पणुं नाम ॥ सु० ॥ सगपण को दाख्युं नहि ए ॥ १९ ॥  
राख्यो समता चाव. संजम ऊपर चाव ॥ सु०

मने करीने मोढ्या नही ए ॥ १० ॥ तीखा पाठ-  
 णानी धार, मसतक ऊपर प्रहार ॥ सु० ॥ खाल  
 उतारी देहनी ए ॥ ११ ॥ पगां सूधी खाल,  
 रहिता संजममां जाल ॥ सु० ॥ नाके सल घाढ्या  
 नही ए ॥ १२ ॥ रह्या ते रूमे ध्यान, पाम्या  
 केवल ज्ञान ॥ सु० ॥ करम खपावी मुगते गया ए ॥  
 १३ ॥ केवल महिमा होय, धन धन करे सह  
 कोय ॥ सु० ॥ जिनमारग कियो दीपतो ए ॥ १४ ॥

॥ दोहा ॥

कुंती नगरीनी मध्ये, हुवोज हाहाकार ।  
 देखो राय मरावीयो, विना गुने अणगार ॥ १ ॥  
 लोक हुवा सहु आगला, जोर न चाले कोय ।  
 मुनिने मोढ सिधावणो, पण वेर न ठोरे कोय ॥ २ ॥  
 किम वृजे पांचशे सुत्तट, बलि राणि ने राय ।  
 वेर खवर किण विध परे, ते सुणजो चित्त लाय ॥ ३ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

धरम हिये धरो ॥ ए देशी ॥ हजी साधु  
आयो नहीरे, जोवे पांचशे वाट ॥ जलामण  
दीनी रायजी रे, क्षण क्षण करे उच्चाटो रे ॥  
धन्य महोटा मुनि ॥ नित्य कीजे गुण ग्रामो रे ॥  
ध० ॥ सीजे सघलां कामो रे ॥ १ ॥ ध० ॥ नगर  
गली फरी जोयता रे. किहांइ न दीठो रे साध ॥  
सुणयो साधु माख्यो गयो रे, तव परमारथ  
लाधो रे ॥ २ ॥ ध० ॥ राजा पूठे कुण तुमे रे,  
तव बलता कहे जोध ॥ कनककेतुना रजपूत  
ठां रे, तुमे करी वात अयुक्तो रे ॥ ३ ॥ ध० ॥  
खंधक कुंवर दीक्षा लेइ रे, अमे रखवालाजी  
दार ॥ सो मुनिवर ते मारीयो रे, न त्तरी गरज  
लगार रे ॥ ४ ॥ ध० ॥ वचन सुणी जोधा तणां  
रे. राय हुवो दिलगीर ॥ हाहा पाप जानां कीयां  
रे. माख्यो राणीनो वीर रे ॥ ५ ॥ ध० ॥ २



वात सुणी तिसे रे, लागो मरम प्रहार ॥ मूर-  
 तागत धरणी ढलीरे, बूटी आंसूनानी धार रे ॥  
 ६ ॥ ध० ॥ बंधव चव सफलो कीयो रे, तोड्या  
 मोहना रे फंद ॥ हुं पापणी किम वूटशुं रे, झम  
 ते करे आक्रद रे ॥ ७ ॥ ध० ॥ लोहीये खरमी  
 मुहपती रे, समली महेलमां राव ॥ वहिन  
 सुनंदा देखीने रे, ऊठे मोहनी जाल रे ॥ ८ ॥  
 ध० ॥ जिम जिम जाइ सांचरे रे, आणे रागने  
 छेप ॥ वीरा वेगो आवजे रे, हुं नजरे लेउं देव  
 रे ॥ ९ ॥ ध० ॥ कुण वीरो कुण वहिनमी रे, जो  
 जो मोहनी वात ॥ झण चव मुगति सिधावणुं  
 रे, एम करे विलपात रे ॥ १० ॥ ध० ॥ झम जाणी  
 ने मानवी रे, मोह न करशो रे कोय ॥ मोह  
 क्रियां दुःख ऊपजेरे, करमबंध बहु होय रे ॥ ११ ॥  
 ॥ ध० ॥ सालो सगो नवी जाणीयो रे, तपसी महो-  
 टो रे साथ ॥ पुरुषसिंह राजा ऊरे रे, वहोत लग्या

अपराध रे ॥ १२ ॥ ध० ॥ पांचशे जोधा इम  
चितवे रे, मख्यो गयो मुनिराय ॥ कनककेतु राजा  
कने रे, कांइ कहेशुं तिहां जाय रे ॥ १३ ॥ ध० ॥  
चारित्र द्यो हवे चोंपशुं रे, किसो सास वीशवास ॥  
काल कितो इक जीवणो रे, राखो मुगतिनी आश  
रे ॥ १४ ॥ ध० ॥ निश्चे करी संजम लीयो रे,  
पांचशे जोधा शिरदार ॥ चोखो पाली सुरगति  
लही रे, वलि करशे नव पार रे ॥ १५ ॥ ध० ॥

॥ दोहा ॥

हवे राजा मन चितवे, एहवु खून न कोय ।  
साधु मारण मन ऊपनुं, ए संशय ठे मोय ॥ १ ॥  
इम विचारी वंदण गयो, साधु जणी कहे एम ।  
त्रिणा गुनहे महोटो मुनि, मे माख्यो कहो केम ॥२॥

॥ ढाल ४ थी ॥

वीर सुणो मोरी विनति ॥ ए दशी ॥

साधु कहे राय सांजलो, तूंतो हूंतो हो क चर

जीव ॥ ए खंधक मानव हूतो, चतुराई हो धरतो  
 रे अतीव ॥ सा० ॥ १ ॥ करम न ठोमे केहने,  
 न्नीखारी हो कुंण राणो राव ॥ कुंण साधुने कुंण  
 चोरटो, जला जुंमा हो सहु होवे जाव ॥ २ ॥ क० ॥  
 पिठला जव इण खंधके, जतारी हो काचरनी  
 खाल ॥ विचलो गिर काहामी लियो, सरायो हो  
 घणी करिय कितोल ॥ ३ ॥ क० ॥ पठेहि पठतायो  
 नहीं, बंध पकियो हो तिण रे जण ठाय ॥ तिण  
 करमे करी खालमी, उतारी हो तें साधूनी राय  
 ॥ ४ ॥ क० ॥ वचन सुणी राय करपीयो, करमोनी  
 हो घणी विपमी बात ॥ राय राणी दोनू कहे.  
 घरमांहे हो घनी अफली जात ॥ ५ ॥ क० ॥  
 पुरुपसिंह राजा तिहां, सुनंदा हो राणी सुविनीत ॥  
 राज ठोमी चारित्र लियो, आराध्यो हो दोनुं रुनी  
 रीत ॥ ६ ॥ क० ॥ करम खपावी मुगते गयां,  
 बधारी हो जग धरमनी सोह ॥ अजर अमर सुख

शाश्वतां, एहवी करणी हो करजो सहु कोय ॥  
७ ॥ क० ॥ अठारशे इग्यारोत्तरे, चैत्र मासे हो  
शुदि सातम जोय ॥ वारुणं गाम सुखी सदा,  
ओढो अधिको हो मिच्छामि दुक्करुहोय ॥७॥क०॥

॥ इति श्री स्वधक मुनितुं चोढालियुं मम्पूर्ण ॥

॥ अथ श्री आराधनानुं स्तवन प्रारंभ ॥

॥ दोहा ॥ सकल सिद्धि दायक सदा,  
चोवीशे जिनराय ॥ सहगुरु सामिनि सरस्वति, प्रेमे  
प्रणमूं पाय ॥ १ ॥ त्रिभुवनपति त्रिशला तणो,  
नंदन गुण गंजीर ॥ शासन नायक जग जयो,  
वर्द्धमान वरु वीर ॥ २ ॥ एक दिन वीर जिणं-  
दने, चरणे करि परणाम ॥ त्रिक जीवना हित  
जणी, पूढे गौतम स्वाम ॥ ३ ॥ मुक्तिमार्ग आरा-  
धिये, कहो किण परे अरिहंत ॥ सुधा सरस तव  
वचन रस, जांखे श्रीजगवंत ॥ ४ ॥ अति-

आलोक्ष्ये, व्रत धरिये गुरु साख ॥ जीव खमावो  
सयल जे, योनि चोराशी लाख ॥ ५ ॥ विधिगुं  
वली बोसिराविये, पापस्थान अढार ॥ चार शर-  
ण नित्य अनुसरो, निंदो डुरित आचार ॥ ६ ॥  
शुभकरणी अनुमोदिये, जाव जलो मन आण ॥  
अणसण अवसर आदरी, नवपद जपो सुजाण  
॥ ७ ॥ शुभगति आराधन तणा, ए ठे दश अधि-  
कार ॥ चित्त आणीने आदरो, जिम पामो  
नवपार ॥ ८ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ ए ठिंकि किहां राखी ॥ ए देशी ॥

ज्ञान दरिसण चारित्र तप वीरज, ए पांचि  
आचार ॥ एह तणा इह चव परजवना, आलो-  
क्ष्ये अतिचार रे ॥ १ ॥ प्राणी ज्ञान जणो गुण-  
वाणी ॥ वीर वदे एम वाणी रे ॥ प्राणी ॥ ज्ञा० ॥  
द आंकणी ॥ गुरु उलवीये नहिं गुरु विनये, कांठ

धरी बहुमान ॥ सूत्र अर्थ तदुन्नय करी सूधां.  
जणीये वही उपधान रे ॥ २ ॥ प्राणी ॥ ज्ञा० ॥  
ज्ञानोपकरण पाटी पोथी, ठवणी नोकरवाली ॥  
तेह तणी कीधी आशातना, ज्ञान चक्ति न  
संजाली रे ॥ ३ ॥ प्राणी ॥ ज्ञा० ॥ इत्यादिक  
विपरीतपणार्थी, ज्ञान विराध्युं जेह ॥ आ जव  
परजव वलिय जवोजव, मिठाडुकरु तेह रे ॥ ४ ॥  
प्राणी समकित द्यो शुद्ध जाणी ॥ ए आंकणी ॥  
जिनवचने शंका नवि कीजे, नवि परमत अजि-  
लाख ॥ साधुतणी निंदा परिहरजो, फलसंदेह  
म राख रे ॥ ५ ॥ प्राणी ॥ स० ॥ मूढपणुं ठंनो  
परशंसा, गुणवंतने आदरिये ॥ साहामीने धर्म  
करी थिरता, चक्ति प्रजावना करीये रे ॥ ६ ॥  
प्राणी ॥ स० ॥ संघचैत्य प्रासाद तणो जे, अव-  
र्णवाद मन लेख्यो ॥ ड्रव्य देवको जे विणसा-  
ड्यो, विणसंतां उवेख्यो रे ॥ ७ ॥ प्राणी ॥ स० ॥

इत्यादिक विपरीत पणाथी, समकित खंभुं जेह  
 ॥ आं नव० ॥ मिठा० ॥ ७ ॥ प्राणीचारित्र ल्यो  
 चित्त आणी ॥ ए आंकणी ॥ पांच समिति त्रण  
 गुति विराधि, आठे प्रवचन माय ॥ साधुतणे धर्मे  
 परमादे, अशुद्ध वचन मन काय रे ॥ ए ॥  
 प्राणी ॥ चा० ॥ श्रावकने धर्मे सामायिक, पोस-  
 हमां मन वाली ॥ जे जयणापूर्वक जे आठे, प्रव-  
 चनमाय न वाली रे ॥ १० ॥ प्राणी ॥ चा० ॥ इत्या-  
 दिक विपरीतपणाथी, चारित्र मोड्युं जेह ॥ आ  
 नव० ॥ मिठा० ॥ ११ ॥ प्रा० ॥ चा० ॥ वारे जे  
 दे तप नवि कीधुं, ठते योगे निज शक्ते ॥ धर्मे  
 मन वच काया वीरज, नवि फोरविणं जगते रे  
 ॥ १२ ॥ प्राणी ॥ चा० ॥ तपवीरज आचारे एणि  
 परे, विविध विराध्या जेह ॥ आ नव० ॥ मिठा०  
 ॥ १३ ॥ प्राणी ॥ चा० ॥ वलीय विशेषे चारित्र  
 केरा, अति चार आलोइये ॥ वीर जिणेसर वयण

सुणीने, पाप मयल सवि धोइये रे ॥१४॥ प्राणी ॥ चाण ॥  
॥ ढाल बीजी ॥ पामी सुगुरु पसाय ॥ ए देशी ॥

॥ पृथिवी पाणी तेज, वाज वनस्पति ॥ ए  
पांचे थावर कहां ए ॥ करि करसण आरंज, खेत्र  
जे खे मियां ॥ कूवा तलाव खणावीयां ए ॥ १ ॥  
घर आरंज अनेक, टांकां जोयरां ॥ मेढी माल  
चणावीयां ए ॥ लींण घुंण काज, इणी परे  
परपरे ॥ पृथिवी काय विराधिया ए ॥ २ ॥ धोयण  
नाहण पाणी, जीवण अपकाय ॥ ठोती धोती  
करी रूहव्यां ए ॥ जाठीगर कुंजार, लोह सोवन  
गरा ॥ जामुंजा लिहालागरा ए ॥ ३ ॥ तापण  
शेकण काज, वस्त्र निखारण ॥ रंगण रांधण रस-  
वती ए ॥ इणी परे कर्मादान, परे परे केलवी ॥  
तेज वाज विराधिया ए ॥ ४ ॥ वामी वन आराम  
वावि वनस्पति ॥ पान फूल फल चूंटीयां ए ॥  
पोहोक पापनी शाक, शेक्यां शूकव्यां ॥ तुंध्यां



ठेयां आथीयां ए ॥ ५ ॥ अलसीने एरंरु, घाणी-  
 घालीने ॥ घणा तिलादिक पीलीया ए ॥ घाली-  
 कोलुमांहि, पीली शेलकी ॥ कंद मूल फलवेची-  
 यां ए ॥ ६ ॥ एम एकेंद्रिय जीव, हण्या हणा-  
 वीया ॥ हणतां जे अनुमोदीया ए ॥ आचव पर-  
 चव जेह, वलिय चवोचवे ॥ ते मुऊ मिठामि  
 दुककुंए ॥ ७ ॥ कृमी सरमीयां कीना, गारु  
 गंकोला ॥ झ्यल पूरा अलसीयां ए ॥ वाला जलो  
 चूकेल, विचलित रसतणा ॥ वली अथाणां प्रमुख  
 नां ए ॥ ८ ॥ एम वे इंद्रिय जीव, जेमे डूहव्या ॥  
 ते मुऊ ॥ उडेही जू लीख, मांकरु मंकोना ॥  
 चांचरु कीनी कुंथुआ ए ॥ ९ ॥ गडहीयां घीमेल-  
 कान खर्जरुका ॥ गांगोना धनेनीयां ए ॥ एम ते  
 इंद्रिय जीव, जे मे डूहव्या ॥ ते मुऊ ॥ १० ॥  
 माखी मत्सर कांस, मसापतंगिया ॥ कंसारी को-  
 लिया वना ए ॥ डीकण विंतु तीरु, जमरा जम-

ठेयां आथीयां ए ॥ ५ ॥ अलसीने एरंरु, घाणीः  
 वालीने ॥ घणा तिलादिक पीलीया ए ॥ वाली-  
 कोबुमांहि, पीली शेलनी ॥ कंद मूल फलवेची-  
 यां ए ॥ ६ ॥ एम एकेंद्रिय जीव, हएया हणा-  
 वीया ॥ हणतां जे अनुमोदीया ए ॥ आचव पर-  
 चव जेह, वलिय चवोचवे ॥ ते मुऊ मिठामि  
 दुकुरुंए ॥ ७ ॥ कृमी सरमीयां कीना, गानर  
 गंनोला ॥ इवल पूरा अलसीयां ए ॥ वाळा जलो  
 चूनेल, विचलित रसतणा ॥ वली अथाणां प्रमुख  
 नां ए ॥ ८ ॥ एम वे इंद्रिय जीव, जेमे इहव्या ॥  
 ते मुऊ ॥ उडेही जू लीख, मांकन मंकोना ॥  
 चांचन कीनी कुंयुआ ए ॥ ९ ॥ गडहीयां घीमेल-  
 कान खजूरनां ॥ गींगोना धनेनीयां ए ॥ एम ते  
 इंद्रिय जीव, जे मे इहव्या ॥ ते मुऊ ॥ १० ॥  
 नाखी मत्तर नांत, ममापतंगिया ॥ कंमारी को-  
 लिया वना ए ॥ डीकण विंतु नीन, तमरा तम-

रीयो ॥ कोता वग खरु मांकनी ए ॥ ११ ॥ एम  
चौरिंद्रिय जीव, जे में डूहव्या ॥ ते मुऊ० ॥  
जलमां नाखी जाद, जलचर डूहव्या ॥ वनमां  
मृग संतापीया ए ॥ १२ ॥ पीड्या पंखी जीव,  
पानी पाशमां ॥ पोपट घादया पांजरे ए ॥ एम  
पचेद्रिय जीव, जे में डूहव्या ॥ ते मुऊ० ॥ १३ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ प्रथम गोवादा तणे जवे जी ॥ ए देशी ॥

क्रोध लोच जय हासथी जी; बोढ्यां वचन  
असत्य ॥ क्रूर करी धन पारकां जी, लीधां जेह  
अदत्त रे ॥ जिनजी ॥ १ ॥ मिठामिडुकरु आज ॥  
तुम साखे महाराज रे ॥ जिनजी ॥ देइ साहं  
काज रे ॥ जिनजी ॥ मि० ॥ ए आंकणी ॥ देव  
मनुज तिर्यचनां जी, मैद्युन सेव्यां जेह ॥ विप-  
यारस लंपटपणे जी, घणुं विनंब्यो देह रे ॥ जि०  
॥ २ ॥ मि० ॥ परिग्रहनी ममता करी जी. जव

जव मेली आथ ॥ जे जिहांनी ते तिहां रही  
जी, कोइ न आवी साथे रे ॥ जि० ॥ ३ ॥ मि० ॥  
रयणीजोजन जे कर्या जी, कीधां नदय अन्नदय ॥  
रसना रसनी लालचे जी, पाप कस्यां प्रत्यक्ष रे ॥  
जि० ॥ ४ ॥ मि० ॥ व्रत लेइ विसारियां जी,  
वर्दी चांग्यां पञ्चरकाण ॥ कपटहेतु किरिया करी  
जी, कीधां आप वखाण रे ॥ जि० ॥ ५ ॥ मि० ॥  
व्रण ढाल आवे डुहे जी, आलोया अतिचार ॥  
शिवगति आराधन तणो जी, ए पहेलो अधि-  
कार रे ॥ जि० ॥ ६ ॥

॥ ढाल चौथी ॥ साहेलनीनी दर्शी ॥

पंच महाव्रत आदरो ॥ साहेलनी रे ॥  
अथवा ल्यो व्रत वार तो ॥ यथाशक्ति व्रत आदरी  
॥ सा० ॥ पालो निरतिचार तो ॥ १ ॥ व्रत लीधां  
नंतरीये ॥ सा० ॥ द्वियने धरिय विचार तो  
शिवगति आराधन तणो ॥ सा० ॥ ए व्रीजो

अधिकार तो ॥ १ ॥ जीव सवे खमाविये ॥ सा० ॥  
योनि चोराशी लाख तो ॥ मन शुद्धे करो खा-  
मणां ॥ सा० ॥ कोइशुं रोष न राख तो ॥ २ ॥  
सर्व मित्र करी चिंतवो ॥ सा० ॥ कोई न जाणो शत्रु  
तो ॥ राग द्वेष एम परिहरो ॥ सा० ॥ कीजे  
जन्म पवित्र तो ॥ ४ ॥ सामी संघ खमाविये ॥  
सा० ॥ जे उपनी अप्रीति तो ॥ सज्जन कुटुंब  
करी खामणां ॥ सा० ॥ ए जिनशासन रीति  
तो ॥ ५ ॥ खमिये अने खमाविये ॥ सा० ॥ एहज  
धर्मनो सार तो ॥ शिवगति आराधन तणो  
॥ सा० ॥ ए त्रीजो अधिकार तो ॥ ६ ॥ मृषा-  
वाद हिंसा चोरी ॥ सा० ॥ धन मूर्खा मेहुन्न तो ॥  
क्रोध मान माया तृष्णा ॥ सा० ॥ प्रेम द्वेष पैशुन्य  
तो ॥ ७ ॥ निंदा कलह न किजीये ॥ सा० ॥ कूनां  
न दीजे आल तो ॥ रति अरति मिथ्या तजो  
॥ सा० ॥ माया मोस जंजाल तो ॥ ८ ॥ त्रि-

विध त्रिविध वोसिराविये ॥ सा० ॥ पापस्थान  
अढार तो ॥ शिवगति आराधन तणो ॥ सा० ॥  
ए चोथो अधिकार तो ॥ ए ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ हवे निःसुणी इहां आवीयाए ॥ ए देशी ॥

जनम जरामरणे करी ए, ए संसार असार  
तो ॥ कस्यां कर्म सहु अनुजवे ए, कोइ न राख-  
णहार तो ॥ १ ॥ शरण एक अरिहंतनुं ए, शरण  
सिद्ध जगवंत तो ॥ शरण धर्म श्रीजैननो ए,  
साधु शरण गुणवंत तो ॥ २ ॥ अवर मोह सवि  
परिहरी ए, चार शरण चित्त धार तो ॥ शिव-  
गति आराधन तणो ए, ए पांचमो अधिकार  
तो ॥ ३ ॥ आ जव परजव जे कस्यां ए, पाप  
कर्म केइ लाग्न तो ॥ आत्मसाखे ते निर्दीये  
ए, पन्धिकनिये गुन मात्र तो ॥ ४ ॥ मिश्यामति  
वर्त्तावियां ए, जे जांम्यां उत्सूत्र तो ॥ कुमति

कदाग्रहने वशे ए, वली थाप्यां उत्सूत्र तो ॥५॥  
घड्यां घमाव्यां जे घणां ए, घंटी हल हथीयार  
तो ॥ जव जव मेळी मूकीयां ए, करता जीव  
संहार तो ॥ ६ ॥ पाप करीने पोषिया ए, जनम  
जनम परिवार तो ॥ जनमांतर पोहोता पठी ए,  
कोइ न कीधी सार तो ॥ ७ ॥ आ जव परजव  
जे कस्यां ए, इम अधिकरण अनेक तो ॥ त्रिविध  
त्रिविध बोसिरावीये ए, आणी हृदय विवेक तो  
॥ ८ ॥ दुःकृत निंदा एम करी ए, पाप कस्यां  
परिहार तो ॥ शिवगति आराधन तणो ए, ए  
वठो अधिकार तो ॥९॥

॥ ढाल ठठी ॥

॥ आदि तुं जोशने आपणी ॥ ए देशी ॥

धन धन ते दिन माहरो, जिहां कीधो  
धर्म ॥ दान शीयल तप आदरी, टाड्यां दुष्कर्म  
॥ ध० ॥ १ ॥ शत्रुंजादिक तीर्थनी, जे कीधी

यात्र ॥ युगते जिनवर पूजीया, बली पोख्यां पात्र  
 ॥ ध० ॥ १ ॥ पुस्तक ज्ञान लखावीयां, जिणहर  
 जिणचैत्य ॥ संघ चतुर्विध साचव्या, ए साते  
 खेत्र ॥ ध० ॥ ३ ॥ पम्किमणां सुपरे कख्यां,  
 अनुकंपा दान ॥ साधु सूरि उवजायने, दीधां  
 बहुमान ॥ ध० ॥ ४ ॥ धर्मकारज अनुमोदिये,  
 इम वारोवार ॥ शिवगति आराधन तणो, ए  
 सातमो अधिकार ॥ ध० ॥ ५ ॥ चाव चलो मन  
 आणीये, चित्त आणी ठाम ॥ समता चावे ता-  
 वीये, ए आतमराम ॥ ध० ॥ ६ ॥ सुख दुःख  
 कारण जीवने, कोइ अवर न होय ॥ कर्म आप  
 जे आचख्यां, जोगविये सोय ॥ ध० ॥ ७ ॥ समता  
 विण जे अनुसरे, प्राणी पुण्यनां काम ॥ ठार  
 उपर ते वीपाणुं, जांवर चित्राम ॥ ध० ॥ ८ ॥  
 ताव चली परे तावीये, ए धर्मनां सार ॥ शिवगति  
 आराधन तणो, ए आठमो अधिकार ॥ ध० ॥ ९ ॥



॥ ढाढ सातमी ॥ रेवतगिरि उपरे ॥ ए देशी ॥

हवे अवसर जाणी, करिये संलेषण सार ॥  
 अणसण आदरीये, पञ्चरकी चार आहार ॥ लडुता  
 सवि मूकी, गंभी ममता अंग ॥ ए आत्म खेले,  
 समता ज्ञान तरंग ॥ १ ॥ गति चारे कीधा, आ-  
 हार अनंत निःशंक ॥ पण तृप्ति न पान्यो, जीव  
 लालवीर्ज रंक ॥ डुलहो ए वली वली, अणस-  
 णनो परिणाम ॥ एथी पामीजे, शिवपद सुरपद  
 गम ॥ २ ॥ धन्न धन्नो शालिजद्र, खंधो मेघ-  
 कुमार ॥ अणसण आराधी, पाम्या नवनो पार ॥  
 शिवमंदिर जाशे, करी एक अवतार ॥ आराधन  
 केरो, ए नवमो अधिकार ॥ ३ ॥ दशमे अधिकारे,  
 महामंत्र नवकार ॥ मनथी नवि मूको, शिवसुख  
 फल सहकार ॥ ए जपतां जाए, डुरगति दोष  
 विकार ॥ सुपरे ए समरो, चउद पूरवनो सार  
 ॥ ४ ॥ जन्मांतरे जातां, जो पामे नवकार ॥ ते

पातक गाली, पामे सुर अवतार ॥ ए नव पद  
सरिखो, मंत्र न को संसार ॥ इह चव ने परचवे,  
सुख संपत्ति दातार ॥ ५ ॥ जुं चीलने चीलकी,  
गजा राणी थाय ॥ नवपद महिमाथी, राजसिंह  
महाराय ॥ राणी रत्नवती वेहु, पाम्यां ठे सुर-  
नाग ॥ एक चवथी लेशे, सिद्धवधू संयोग ॥ ६ ॥  
श्रीमतीने ए वली, मंत्र फढ्यो तत्काल ॥ फणि-  
धर फीटीने, प्रगट थइ फुलमाल ॥ शिवकुमरे  
योगी, सोवन पुढसो कीध ॥ इम एणे मंत्रे काज  
वणानां सिद्ध ॥ ७ ॥ ए दश अधिकारे, वीर  
जिणेंसर चाख्यो ॥ आराधन केरो, विधि जेणे  
चितमां राख्यो ॥ तेणे पाप पखाली, चव चय  
दुरे नाख्यो ॥ जिन विनय करतां, सुमति अमृत  
रत्न चाख्यो ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ दाख आवनी ॥ नमो चवि चावगुं ए ॥ ए देशी  
निद्धारथ गय कुलनिवो ए, त्रिशला मान

मद्वहार तो ॥ अवनितले तुमे अवतस्या ए, करवा  
अम उपकार ॥ १ ॥ जथो जिन वीरजी ए ॥ ए  
आंकणी ॥ में अपराध कस्या घणा ए, केहेतां न  
लहुं पार तो ॥ तुम चरणे आव्या जणी ए, जो  
तारे तो तार ॥ २ ॥ ज० ॥ आश करीने आवी-  
यो ए, तुम चरणे महाराज तो ॥ आव्याने उवे-  
खशो ए, तो किम रहेशे लाज ॥ ३ ॥ ज० ॥ कर्म  
अलूजण आकरां ए, जनम मरण जंजाल तो ॥  
हुं तुं एहथी उन्नग्यो ए, ठोमावो देवदयाल ॥  
॥ ४ ॥ ज० ॥ आज मनोरथ मुज फट्या ए, नाठां  
दुःख दंदोल तो ॥ तूगो जिन चोवीशमो ए,  
प्रगढ्यो पुण्य कल्लोल ॥ ५ ॥ ज० ॥ जव जव विनय  
तुमारमो ए, जाव जगति तुम पाय तो ॥ देव  
दया करी दीजीये ए, बोध बीज सुपसाय ॥ ६ ॥  
ज० ॥ इति ॥

॥ कलश ॥ इय तरण तारण सुगति कारण

दुःख निवारण जग जयो ॥ श्रीवीर जिनवर चरण  
 शुणतां, अधिक मन उलट थयो ॥ १ ॥ श्री विजय-  
 देव सुरींद पटधर, तीर्थ जंगम इणि जगे ॥ तप  
 गत्रपति श्री विजयप्रभु सूरि, सूरितेजे जगमगे  
 ॥ २ ॥ श्री हीरविजय सूरि शिष्य वाचक, कीर्त्ति-  
 विजय सुर गुरु समो ॥ तस शिष्य वाचक विनय-  
 विजये, शुणयो जिन चोवीशमो ॥ ३ ॥ सयसत्तर  
 संवत उगण त्रीशे, रही रांदेर चौमास ए ॥  
 विजय दशमी विजय कारण, कियो गुण अच्युस  
 ए ॥ ४ ॥ नरत्तव आरा धन सिद्धि साधन, सुकृत  
 लील विलास ए ॥ निर्जरा हेते तवन रचियुं,  
 नामे पुण्य प्रकाश ए ॥ ५ ॥ इति श्री आराधना  
 द्द पुण्य प्रकाशस्तवनं संपूर्ण ॥ श्लोक ॥ १२७ ॥

॥ अथ श्री शांतिजिनस्तवन ॥

शोखनी देशी ॥

शांति जिनेसर नादेव वडो, अनुभव रसनो

कंदोरे ॥ मुखने मटके लोचन लटके, मोह्या  
सुरनर वृंदोरे ॥ शांति० ॥ १ ॥ आंचे मंजरी  
कोयल टहुके, मेघ घटा जेम मोरो रे ॥ तेम  
जिनवरने देखी हरखुं, वली जिमचंद चकोरोरे ॥  
शांति० ॥ २ ॥ जिन प्रतिमा श्रीजिनवर जाखी,  
सूत्रघणां ठे साखी रे ॥ सुरनर मुनिवर वंदन  
पूजा, करतां शिव अज्जिदार्धी रे ॥ शांति० ॥ ३ ॥  
रायप्पसेणी प्रतिमा पूजी, सूरियाज्ज समकित  
धारी रे ॥ जीवाज्जिगमे प्रतिमा पूजी, विजयदेव  
अधिकारी रे ॥ शांति० ॥ ४ ॥ जिनवर चैत्य विना  
नवि वंडु, आणंदजी एम बोले रे ॥ सातमे अंगे  
समकित मूले, अवर नहि तस तोले रे ॥ शांति० ॥  
५ ॥ ज्ञातासूत्रे ड्रौपदी पूजा, करती शिवसुख  
मागे रे ॥ राय सिद्धारथ प्रतिमा पूजी, कटपसूत्र  
मांहे रागे रे ॥ शांति० ॥ ६ ॥ विद्याचारण मुनि-  
वर वंदी, प्रतिमा पांचमे अंगेरे ॥ जंघाचारण

मुनिवर वंदी, जिन पद्मिमा मन रंगे रे ॥ शांति०  
॥ ७ ॥ आर्यसुहस्ती सूरि उपदेशे, साचो संप्रति-  
रायरे ॥ सवाक्रोरु जिनविंव चराव्यां धन धन  
एहनी मायरे ॥ शांति० ॥ ८ ॥ मोकली प्रतिमा  
अन्नयकुमारे, देखी आद्र कुमार रे ॥ जाति स्म-  
रणे समकित पामी, वरियो शिववधुसार रे  
॥ शांति० ॥ ९ ॥ इत्यादिक बहु पाठ कद्या ठे,  
सूत्रमांहे सुखकारी रे ॥ सूत्रतणो एक वरण  
उत्थापे, ते कह्यो बहुल संसारी रे ॥ शांति० ॥ १० ॥  
ते माटे जिन आणा धारी, कुमति कदाग्रह नि-  
वारी रे ॥ चक्ति तणां फल उत्तराध्ययने, बोध  
बीज सुखकारी रे ॥ शांति० ॥ ११ ॥ एक चवे  
दोय पदवी पाम्या, शौलमा श्रीजिनरायरे ॥ मुज  
मन मंदिरिचे पधरावो, धवल मंगल गवरायरे ॥  
शांति० ॥ १२ ॥ जिन उत्तम पदरूप अनुपम.  
कीर्ति कमलानी शालारे ॥ जिन विजय कहे प्रभु

जीनी जक्ति, करतां मंगल माला रे ॥३॥०॥१३॥

॥ इति ॥

॥ ज्ञानपंचमी नुंस्तवन ॥

ऐसी विधि तैने पाई रे । तपपंचमी करजा ॥

नन्दीसूत्र विशेष आवश्यक ज्ञान कथन सुख-  
दाई रे । पढ़ तिमिरको हरजा ॥ १ ॥ ऐसी० ॥

मति अठ्ठावीस । श्रुतचऊदहवीस ॥ ठक अवधि  
जेदेगाई रे । असंख्या जेदकुं सुणजा ॥१॥ऐसी०॥

दोय जेदे मन पर्यव आख्युं ॥ रुजुविपुल गुणदाईरे  
एक केवल सरज ॥ ३ ॥ ऐसी० ॥ चारमूंगे एक

बोलत सुंदर श्रुतज्ञाने जिनरायारे । वाणीज-  
विजीव तिरजा ॥४॥ ऐसी०॥ ज्ञान क्रियामें । नाणकी

मुक्ता ॥ सत्यासत्य जगाई रे । गम्या अगम्यकुं  
गिणजा ॥ ५ ॥ ऐसी० ॥ पंचमी तपडो । कर्म

कठोर ॥ गुण मंजरी गुणपाई रे ॥ वरदत्त सिम-  
रजा ॥ ६ ॥ ऐसी० ॥ शुज कार्तिक शुदि । पंचमी

दिवसे ॥ नाण जगति ध्यान ध्याई रे । तप जावकुं ध-  
रजा ॥७॥ ऐसी० ॥ पंचमीतप । पंचमास वरसकर ॥  
सेवा अर्ह नकी पाई रे ॥ शुच आनंद वरजा ॥७॥ ऐसी०

॥ महावीरस्वामी नुं स्तवन ॥

वीर प्रभु जैसे वने वैसे तारो । मेरी करणी  
नाहिं विचारो ॥ अद्गुण जरे अनेक मुजजीतर ।  
गुणको नही लवलेश ॥ वीर० ॥ १ ॥ मेंढूं रंक  
अनाथ प्रभुजी । आयो शरण तुमारे ॥ करुणा-  
सागर नाम धरावो । राखो शरण तुमारे ॥ वीर० ॥  
२ ॥ शरणे आया ने गाम न देशो । अपनो विरुद  
संतारो ॥ दीन दयाबु तुमहो स्वामी । जव सायर  
पार उतारो ॥ वीर० ॥ ३ ॥ जव अनंत में जट-  
क्यो प्रभुजी । दुःख अनंत मे पायो ॥ नरक नि गो-  
दमें पड़ियो स्वामी । शरणे क्णिणही न राख्यो ॥  
४ ॥ पाप कर्मको पोटलो वांब्यो । कुमति सं कुमत  
निखायो ॥ सद्गुण की संगत नहीं पायो । वृथा





जइये रे जिम तेहने घर आशा करी रे लो ॥१॥  
 हारे जस सेवासैती स्वारथ न होवे सिद्ध जो,  
 गली रे शी करवी तेहथी गोठनी रे लो ॥ हारे  
 जूतुं खाये ते मीठाइने माटे जो, कोइ रे परमा-  
 रथविण नही प्रीतनी रे लो ॥३॥ हारे प्रभु अंतर-  
 जामी जीवन प्राण आधार जो, बाह्यो रे नवि  
 जाणे कलियुग वायरो रे लो ॥ हारे माहारा  
 दायक नायक जगत वत्सल जगवान जो, वारु रे  
 गुणकेरो साहिव सायरो रे लो ॥ ४ ॥ हारे प्रभु  
 बार्गी मुजने ताहरी माया जोर जो, अलगारे  
 रद्धारथी होय उंसिं गलो रे लो ॥ हारे कुण जाणे  
 अंतर्गतनी विण महाराज जो, हेजे रे हसी बोलो  
 गानी आमलो रे लो ॥ ५ ॥ हारे तहारे मुखने  
 मटके अटक्यु महारं मन्न जो, आंखरुली अणी-  
 बाली कामणगारीयुं रे लो ॥ हारे मारे नयणां  
 खंफट जेवे खिण खिण तुज्ज जो, रानां रे प्रभुरूप

न रहे वारियुं रे लो ॥ ६ ॥ हारिं प्रभु अलग्ना तो  
पण जाणजो करीने हजूर जो, ताहारी रे वलि  
हारी हुं जाउ वारणे रे लो ॥ हारिं कवि रूप  
विबुधनो मोहन करे अरदास जो, गिरुआथी मन  
आणी उलट अनि घणे रे लो ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीवीरप्रभुनुं दीवालीनुं स्तवन ॥

मारगदेशक मोहनो रे, केवल ज्ञाननिधान ॥  
चाव दया सागरप्रभु रे, पर उपगारी प्रधानो रे ॥  
१ ॥ वीर प्रभु सिद्ध थया ॥ संघ सकल आधारो रे,  
हवे शृणु चरतमां ॥ कोण करशे उपगारो रे ॥  
वीरो ॥ २ ॥ नाथ विहूणुं सैन्य जुं रे, वीर  
विहूणो रे संघ ॥ साधे कोण आधारथी रे, परमा  
नंद अन्नंगो रे ॥ वीरो ॥ ३ ॥ माता विहूणो  
वाल जुं रे, अरहो परहो अथनाथ ॥ वीर विहूणा  
जीवना रे, आकुल व्याकुल थाय रे ॥ वीरो ॥ ४ ॥

संशय ठेदक वीरनो रे, विरह ते केम खमाथ ॥  
जे दीठे सुख ऊपजे रे, ते विण केम रहेवायो रे  
॥ वीर० ॥ ५ ॥ निर्यामक जव समुद्रनो रे, जवअरुवि  
सठवाह ॥ ते परमेश्वर विण मले रे, केम वाधे  
उत्साहो रे ॥ वीर० ॥ ६ ॥ वीरथकां पण श्रुत  
तणो रे, हतो परम आधार ॥ हवे इहां श्रुत  
आधार ठे रे, अहो जिनमुद्रासारो रे । वीर० ॥  
७ ॥ त्रण काले सवि जीवने रे, आगमथी आणंद ॥  
मेवो ध्यावो जवि जना रे, जिनपदिमा सुखकंदो  
रे ॥ वीर० ॥ ८ ॥ गणधर आचारज मुनि रे, सहुने  
इणी परे सिद्ध ॥ जव जव आगम संगथी रे, देव  
चंद्र पद लीध रे ॥ ९ ॥

॥ अथ श्री एकादशीनी सजाय प्रारंभः ॥

आज महारे एकादशी रे, नणदल मॉन  
करी मुन्न रहिये ॥ पूठयानो परुत्तर पाठो, केहने  
कांइ न कहिये ॥ आ० ॥ १ ॥ महारो नणदोइ

तुजने वाढ्हो, मुजने ताहारो वीरो ॥ धूआमाना  
वाचका जरतां, हाथ न आवे हीरो ॥ आ० ॥१॥  
घरनो धंधो घणो कस्यो पण, एक न आव्यो  
आमो ॥ परजव जातां पालव जाले, ते मुजने  
देखामो ॥ आ० ॥ ३ ॥ मागशिर शुद्धि अगीया-  
रश महोटी, नेवुं जिनना निरखो ॥ दोहोडशो  
कल्याणिक महोटां, पोथी जोई ने हरखो ॥ आ०  
॥ ४ ॥ सुव्रत शैठ थयो शुद्ध श्रावक, मौन धरी  
मुख रहयो ॥ पावक पूर सघलो पर जाव्यो,  
एहनो कांई न दहीयो ॥ आ० ॥ ५ ॥ आठ पहोर  
पोसो ते करिये, ध्यान प्रचुनुं धरिये ॥ मन वच  
काया जो वश करिये, तो जव साधर तरिये ॥  
आ० ॥ ६ ॥ ईर्या समिति जाषा न बोले, आमुं  
अवलुं पेखे ॥ पन्निकमणाशुं प्रेम न राखे, कहो  
केस लागे लेखे ॥ आ० ॥ ७ ॥ कर उपर तो माला  
फिरती, जीव फरे मनमांही ॥ चित्तुं तो चिहुं-

संशय ठेदक वीरनो रे, विरह ते केम खमाय ॥  
जे दीठे सुख ऊपजे रे, ते विण केम रहेवायो रे  
॥ वीर० ॥ ५ ॥ निर्यामक नव समुद्रनो रे, नवअरुवि  
सत्रवाह ॥ ते परमेश्वर विण मले रे, केम बाधे  
उत्साहो रे ॥ वीर० ॥ ६ ॥ वीरथकां पण श्रुत  
नणो रे, हतो परम आधार ॥ हवे इहां श्रुत  
आधार ठे रे, अहो जिनमुद्रासारो रे । वीर० ॥  
७ ॥ त्रण काले सवि जीवने रे, आगमथी आणंद ॥  
सेवा ध्यावो नवि जना रे, जिनपदिमा सुखकंदो  
रे ॥ वीर० ॥ ८ ॥ गणधर आचारज मुनि रे, सहुने  
इणी परे सिद्ध ॥ नव नव आगम संगथी रे, देव  
चंद्र पद लीध रे ॥ ९ ॥

॥ अथ श्री एकादशीनी सजाय प्रारंभः ॥

आज महारे एकादशी रे, नणदल मॉन  
कर्गी मुन्व रदिये ॥ पृथयानो परुत्तरपाठां, केदने  
कांइ न कहिये ॥ आ० ॥ १ ॥ महारो नणदोइ

तुजने वाढ्हो, मुजने ताहारो वीरो ॥ धूआराना  
वाचका नरतां, हाथ न आवे हीरो ॥ आ० ॥ १ ॥  
घरनो धंधो घणो कस्यो पण, एक न आव्यो  
आरु ॥ परजव जातां पालव जाले, ते मुजने  
देखारु ॥ आ० ॥ २ ॥ मागशिर शुदि अगीया-  
रश महोटी, नेवुं जिनना निरखो ॥ दोहोडशो  
कव्याणिक महोटां, पोथी जोई ने हरखो ॥ आ०  
॥ ४ ॥ सुव्रत शैठ थयो शुरू श्रावक, मौन धरी  
मुख रहयो ॥ पावक पूर सघलो पर जाव्यो,  
एहनो कांई न दहीयो ॥ आ० ॥ ५ ॥ आठ पहोर  
पोसो ते करिये, ध्यान प्रचुनुं धरिये ॥ मन वच  
काया जो वश करिये, तो जव साधर तरिये ॥  
आ० ॥ ६ ॥ ईर्या समिति जापा न बोले, आरुं  
अवलुं पेखे ॥ पन्निकमणाशुं प्रेम न राखे, कहो  
केम लागे लेखे ॥ आ० ॥ ७ ॥ कर उपर तो माला  
फिरती, जीव फरे मनमांही ॥ चित्तुं तो चिटुं-

दिशि मोले, श्णे नजने सुख नांही ॥ आ० ॥७॥  
 पौषध शाले जेगां थइने, चार कथा वली सांधे ॥  
 कांश्क पाप मिटावण आवे, वारगणुं वलि वांधे ॥  
 आ० ॥ ९ ॥ एक उठती आलस मोळे, वीजी  
 उंधे वेठी ॥ नदियोमांथी कांश्क निसरती, जइ  
 इरियामां पेठी ॥ आ० ॥ १० ॥ आई वाई नणंद  
 जोजाई, न्हानी मोहोटी बहुने ॥ सासु ससरो  
 मा ने मासी, शीखा मण ठे सहुने ॥ आ० ॥११॥  
 उदय रतन वाचक उपदेशे, जे नर नारी रहेशे ॥  
 पोसामांहे प्रेम धरी ने, अविचल लीला लेशे ॥  
 आ० ॥ १२ ॥

अथ श्रावक नीचेलखेलात्रण मनोरथने चिंतवतो  
 माहा मोहोटी निर्झरा करे ॥

॥ संनारनो अंत करे, ते लखिये ठेये ॥

द्वारे हुं वाद्य तथा अन्यंतर परियद् जे  
 माहापापनुं मूल, दुर्गतिने वधारनारो, काम,



क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय अने कषायनो  
स्वामी, महादुःखनुं कारण, महा अनर्थकारी,  
दुर्गतिनी शिला, माठी लेश्यानो परिणामी,  
अज्ञान, मोह, मत्सर, राग अने द्वेषनुं मूल,  
दशविध यति धर्म रूप कल्प वृद्धानो दावानल,  
ज्ञान, क्रिया, क्षमा, दया, सत्य, संतोष तथा  
बोधिवीज रूप समकितनो नाश करनारो,  
संयम अने ब्रह्मचर्यनो घात करनारो, कुमति तथा  
कुबुद्धिरूप दुःखदारिद्र्यनो देवा वालो, सुमति  
अने सुबुद्धिरूप सुखसौभाग्यनो नाश करनारो,  
तप संयम रूप धनने वूंटनारो, लोभ क्लेश रूप  
समुद्रनो वधारनारो, जन्म जरा अने मरणनो  
देवावालो, कपटनो जंकार, मिथ्यात्व दर्शन रूप  
शक्यनो जरेलो, मोक्षमार्गनो विघ्नकारी, करुवा  
कर्म विपाकनो देवावालो, अनंत संसारनो, वधा-  
रनारो, महा पापी, पांच इंद्रियना विषयरूप

वैरीनी पुष्टिनो करनारो, मोहोटी चिंता शोक  
गारव अने खेदनो करनार, संसाररूप अगाध  
वह्निनो सिंचवावालो, कूरु कपट अने क्लेशनो  
आगर, मोहोटा खेदनो करावनारो, मंदबुद्धिनो  
आदख्यो, उत्तम साधु निर्ग्रथोये जेने निंद्यो ठे,  
अने सर्व लोकमां सर्व जीवोने एना सरिखो वीजो  
कोइ विषम नथी, मोहरूप पाशनो प्रतिबंधक,  
इहलोक तथा परलोकना सुखनो नाश करनार,  
पांच आश्रवनो आगर, अनंत दारुण दुःख अने  
जयनो देवावालो, महोटा सावद्य व्यापार कुवा-  
णिज्य कृकर्मादानो करावनारो, अश्रुव, अनित्य,  
अशाश्वतो, असार, अत्राण, अशरण, गयो जे  
आरंत अने पग्ग्रिह तेने हुं क्यारे ठांकीश ? जे  
दिवस ठांकिश, ते दिवस महारो धन्य ठे !  
॥ ७ प्रथम मनोरथ ॥

१ क्यारे हुं मुंन थडने दश प्रकारे यतिधर्म



अठार पापस्थानकथी त्रिविधे त्रिविधे वोसरीने,  
चारै आहार पचरकीने, शरीरने, ठेहेले श्वासो-  
च्छ्वासे वोसरावीने त्रण आराधना आराधतो थको,  
चार मंगलिक रूप चार शरण मुखे उच्चरतो थको,  
सर्व संसारने पूंठ देतो थको, एक अरिहंत, वीजा  
सिद्ध, त्रीजा साधु, अने चोथो केवलि प्ररूपित-  
धर्म, तेने व्यावतो थको, शरीरनी ममता रहित  
थयो थको, पादोप गमन संथारा सहित, पांच  
अनिचार टाळतो थको, मरणने अणवांठतो थको,  
एह्वुं पंक्ति मरण अंतकाले मुऊने कराविश ?  
॥ ए त्रीजो मनोरथ ॥

ए त्रण मनोरथने श्रावक, मन, वचन अने  
कायायेकर्री शुद्धपाणे व्यावतो थको सर्व कर्म  
निज्जरीने संसारनो अंत करे, मोक्षरूप शाश्वत  
न्यायक प्रत्ये पामे ॥

श्रीजिनाय नमः ।

## १४ नियम धारणे की विधि ।

प्रिय बांधवो ! देखो जैन धर्मकी कैसी अच्छी रीतियों हैं और ज्ञानियों ने कैसे कैसे सहज रस्ते पाप से बचने के लिये बताया है, धन्य है ! विचार कर देखना चाहिये कि संसारी जीवों में अविरतिकी क्रिया चौदह (१४) राज-लोकमें जितनी वस्तु हैं सबकी आरही है. चाहे जोग में आवे चाहे नहीं. इसी कारण से जीव अनादि काल से कर्मों से ज़ारी हो रहा है और व्रत प्रत्याख्यान (पञ्चख्यान) होवे तो जितनी जोग में आवें उतनी ही की क्रिया लगे, बाकी सब बूट जावे. ज्ञानी महाराजने पाप से बूटने का कैसा सहज रस्ता बताया है. चौदह नियम धारने इतने सहज हैं कि पांच मिनट में धारे जाते हैं और इच्छा होय जितना रखलो, कोई

काम अटकता नहीं; केवल उपयोग रखना चाहिये. इसका अज्यास जलदी हो जाता है. फिर कुठ नी चार नहीं मादूम होता, और फायदा इतना है जिसका पार नहीं; जैसे समुद्र बराबर पाप से ठूटके एक बिन्दू से नी कमती रहजाय तो ऐसे फायदे को मत ठोसो ।

श्रावक को वारह व्रत\* लेने तो जरूर चाहिये, उसमें नी खुसी होय जितना रख लीजिये; कठिनताई बहुत कम है. जबतक वारह व्रत नहीं नी लिये हें तो नी चौदह नियम धारने तो अवश्य ही चाहिये. इसका अज्याम करने २ वारह व्रत नी उदय आ सकेंगे, क्योंकि

\* वारह व्रत यह हैं—१. स्थूल प्राणानिपान विमण. २. स्थूल नृसवद विमण. ३. स्थूल अदनादान विमण. ४. स्थूल मैथुन विमण. ५. स्थूल परिश्रम परिमण. ६. दिक्परिमाण. ७. भोगोपभोग परिमण. ८. अन्वयदंड विमण. ९. सानादिह, १०. देशावकादिह, ११. पै. १२. अतिभिर्भविनाय.

सीढ़ी सीढ़ी चढा जाता है. अगर नियम धारने-  
वाले की अकस्मात् मृत्यु हो जाय तो प्रत्या-  
ख्यान रहने से सुगति में जावे ऐसे अनेक  
फायदे हैं ।

प्रिय ज्ञाश्या ! ऐसी जोगवाई पूरे पुन्यों  
से मिलती है. मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम  
कुल, जैन धर्म यह सब पायके जो बने सो करलो,  
वार वार ऐसा जोग मिलना कठिन है.

चौदह नियम धारने की विधि ।

दिनके चार प्रहर के नियम सवेरे मुंह  
धोने के पहले धारके सामको पार लीजिये. रा-  
त्रिके चार प्रहरके फिर साम को धारके सवेरे पार  
लीजिये. नियम तीन नवकार गिनके लीजिये,  
और तीन नवकार गिनके पारिये. पारने के वख्त  
जो रक्खा था उसको याद करके संज्ञा ली-

जिये, कमती लगा उसका लाज हुआ, ब्रूल से ज्यादा लगा उसका "मिच्छामि डुकम" दीजिये और आठ प्रहर के नियम धारने से चार प्रहर के नियम धारने में सुगमता रहती है क्योंकि पारने के वक्त जो जो वस्तु नोग में आया हो उसका मिलान सुगमता से हो सकता है ।

कोई व्रतधारी श्रावक जन्म जरके निर्वाह के वास्ते ज्यादा ज्यादा वस्तु रखते हैं तो १४ नियम धारने से उनका नी आश्रव संक्षेप हो जाता है इस वास्ते व्रत धारी को और अवि-रतिको अवश्य १४ नियम धारने चाहिये.

चौदह नियमों की गाथा ।

सचित्तं दृढं विगैड् वाण्ड् तंवालं वरैथ कुमुंमेसु ।  
 वार्द्धण सयण विखेवैण वंते दि.सिं न्द्राणं नत्तेसुं ॥

गाथाका संक्षिप्त अर्थ ।

१ सचित्त-कच्चा पानी, दूरी तरकारी, फल, पान, दूग दांतन, निमक आदि, २ द्रव्य-जितनी



न्हाण ( स्नान )—शरीरसे स्नान करना ( मोटा-  
 स्नान ) इतनी वेर. हाथ पैर धोना (ठोटा स्नान)  
 इतनी वेर. १४ नत्तेसु—अशन, पान, खादिम स्वा-  
 दिम, ये चारो आहारमें सैं, खानेमें जितनी चीज  
 आवे सवका कुल वजन इतना. ये १४ नियम के  
 उपर ६ काय और ३ कर्मकी मरजाद धारनी  
 अवश्य है.

### ६ काय ।

१ पृथ्वीकाय -मट्टी, निमक आदि, ( खाने  
 में वा उपन्नोग में आवे ) उसका वजन. २ अप्प-  
 काय—जो पानी पीने में वा दूसरे उपयोग में  
 आवे उसका वजन, \* ३ तेउकाय—चूडहा, अंगीठी,  
 न्छी, चिराग आदिका प्रमाण. ४ वायुकाय-

\* पानीका जात, कूवा, बावड़ी तलाव, नदी, नल, वर, मेर  
 आदिका प्रमाण संख्या भी करना अच्छी है ।

न्हाण ( स्नान )-शरीरसे स्नान करना ( मोटा-  
स्नान ) इतनी बेर. हाथ पैर धोना (ठोटा स्नान)  
इतनी बेर. १४ जत्तेसु-अशन, पान, खादिम स्वा-  
दिम, ये चारो आहारमें सें, खानेमें जितनी चीज  
आवे सबका कुल वजन इतना. ये १४ नियम के  
उपर ६ काय और ३ कर्मकी मरजाद धारनी  
अवश्य है.

### ६ काय ।

१ पृथ्वीकाय -मट्टी, निमक आदि. ( खाने  
में वा उपजोग में आवे ) उसका वजन. २ अप्प-  
काय-जो पानी पीने में वा दूसरे उपयोग में  
आवे उसका वजन, \* ३ तेजकाय-चूल्हा, अंगीठी,  
तठी, चिराग आदिका प्रमाण. ४ वायुकाय-

\* पानीका जान, कूवा. बावड़ी तलाव, नदी, नल. वर. मेघ  
आदिका प्रमाण संख्या भी करना अच्छी है ।

न्हाण ( स्नान )—शरीरसे स्नान करना ( मोटा-  
स्नान ) इतनी बेर. हाथ पैर धोना (ठोटा स्नान)  
इतनी बेर. १४ जत्तेसु—अशन, पान, खादिम स्वा-  
दिम, ये चारो आहारमें सैं, खानेमें जितनी चीज  
आवे सबका कुल वजन इतना. ये १४ नियम के  
उपर ६ काय और ३ कर्मकी मरजाद धारनी  
अवश्य है.

### ६ काय ।

१ पृथ्वीकाय -मट्टी, निमक आदि. ( खाने  
में वा उपजोग में आवे ) उसका वजन. २ अप्प-  
काय—जो पानी पीने में वा दूसरे उपयोग में  
आवे उसका वजन, \* ३ तेउकाय—चूल्हा, अंगीठी,  
जष्ठी. चिराग आदिका प्रमाण. ४ वायुकाय-

\* पानीका जात, कूवा, बावड़ी तलाव, नदी, नल, वर, मेघ  
आदिप्रमाण संख्या भी करना अच्छी है ।

अब रोजके नियम धारने की विधि संक्षेप से लिखते हैं, विस्तार जितना अधिक करिये, यानि नाम खोल खोलकर रखिये उतनाही जादे फायदा है. यदि अवकाश कम होवे तो नीचे लिखे माफक धारिये.

### संक्षिप्त विधि ।

कलके १४ नियम धारेथे उसमें कमती लगा होय उसका लाज होवे; अजाणमें जादा लगा होय उसका मन बचन कायाए करी “मिच्छामि उक्तरं” यह कह कर ३ नवकार गुनके पार लो.

### लेने की विधि ।

आजके १४ नियम धारे सवेरसें सामतक ४ पहरके नीचे लिखे मूजब धार लीजिये, बाकी का त्याग होगया, ३ नवकारका पञ्चख्वाण कर लीजिये और जो पञ्चख्वाण करना होवे नवकारसी अथवा ज्यादा उसका पाठ कहके देशा-

जातका सेर १). ११ वंजमें परदार और परपुरुषसें  
अब्रह्मचर्यकात्याग, इतनी बेर स्वस्त्री वा पुरुषसें  
संबंध करना. बाह्य विनोदकी जयणा, १२ दिशि  
में शरीर से २ या ३ कोस जाना आना. चिठी  
तार तथा माल जेजता मंगाना १० हजार कोस-  
तक. ढापेका जयणा. १३ न्हाणमें ५ मोटे, ५०  
गोटे. १४ जत्तेसुमें खानेको सेर ५, पीनेका पानी  
सेर १५, दुध, सरवत आदि ५ सेर. १५ पृथ्वी-  
काय में मट्टी नमक सेर १). १६ अप्पकाय में  
पानी मन २ (न्हाने पीने में). १७ तेजकाय में ३  
जगह के चूढहे, अंगीठी, जट्टी, चिराग, मंदिर,  
सरक वा दूसरी जगह के चिराग की जयणा.  
१८ वायुकाय में १० पंखे, दूसरे के घरकी जयणा,  
१९ वनस्पतिकाय में ए जात की सेर २ खाने  
को. २० त्रसकाय में चलते जीव को मारने की  
बुद्धि करके मारे नहीं. मन करके उपयोग सहित

हो जाय, और जिसमें से तेल नहीं निकले, उस अन्नको कच्चे दूध, दही, ठासके साथ अलग अथवा मिलाय के खाना बन्ना दोष कहा है. दही बगैरह खूब गरम करके साथ खाने में विदलका दोष नहीं है. १ आचार सब तरह का संधान ३ रोज वाद अन्नद्वय हो जाता है. ३ कंद-मूल ३१ अनन्तकाय, यह सब से जादे दोषकी चीज होने से बिलकुल ठोमने लायक है. ४ मक्खन, सहत आदि ११ अन्नद्वय \* श्रावक को जरूर ही ठोमना चाहिये. न बूटे तो जितना बूटे उतना ठोमिये. थोमे से जिब्हा के स्वाद के

---

\* १ बडके, २ पिपलक, ३ मिलखणके. ४ कठंवरके. ५ गूलर के फल, ६ मदिरा, ७ मांस, ८ मधु, ९ मक्खन १० चरफ, ११ निशा, १२ ओले, १३ मट्टि, १४ रात्री भोजन १५ बहुबीजा फल. १६ संधान ( आनार ). १७ हिंदल, १८ वैंगण, १९ तुच्छ फल. २० अजाना फल, २१ चालितरस, २२ बर्तिस अनन्तकाय.



संताप ॥ १७ ॥ संध्याये आवश्यक साचवे । जिन-  
वर चरण शरण जव-जवे ॥ च्यारे शरण करी  
दृढ होय । सागारी अणशण ले सोय ॥ १८ ॥  
करे मनोरथ मन एहवा । जाऊं तीर्थ शत्रुंजे जे-  
हवा ॥ समेतशिखर आबू गिरनार । जेटीश कवहुं  
धन अवतार ॥ १९ ॥ श्रावकनी करणी ठे एह ।  
एहथी थाये जवनो ठेह ॥ आठे करम पमे पा-  
तला । पापतणा दूटे आमला ॥ २० ॥ वारू लहीये  
अमर विमान । अनुक्रम पामे शिव पुरथान ॥  
कहे जिनहर्ष घणे ससनेह । करणी दुःखहरणी  
ठे एह ॥ २१ ॥

इति श्रावक करनी समाप्त ।

अथ सूतक विचार प्रारंभ ।

॥ प्रथम कोइने घरे जन्म थाय ते विषे ॥

१ पुत्रजन्मे दिन दशनुं सूतक तथा पुत्रीजन्मे



संताप ॥ १७ ॥ संध्याये आवश्यक साचवे । जिन-  
वर चरण शरण नव-नवे ॥ च्यारे शरण करी  
दृढ होय । सागारी अणशण ले सोय ॥ १८ ॥  
करे मनोरथ मन एहवा । जाऊं तीर्थ शत्रुंजे जे-  
हवा ॥ समेतशिखर आबू गिरनार । जेटीश कवहुं  
धन अवतार ॥ १९ ॥ श्रावकनी करणी ठे एह ।  
एहथी थाये नवनो बेह ॥ आठे करम पमे पा-  
तला । पापतणा बूटे आमला ॥ २० ॥ वारू लहीये  
अमर विमान । अनुक्रम पामे शिव पुरथान ॥  
कहे जिनहर्ष घणे ससनेह । करणी दुःखहरणी  
ठे एह ॥ २१ ॥

इति श्रावक करनी समाप्त ।

अथ सूतक विचार प्रारंभ ।

॥ प्रथम कोऽने घरे जन्म थाय ते विषे ॥

१ पुत्रजन्मे दिन दशानुं सूतक तथा पुत्रीजन्मे

संताप ॥ १७ ॥ संध्याये आवश्यक साचवे । जिन-  
वर चरण शरण जव जवे ॥ च्यारे शरण करी  
दड होय । सागारी अणशण ले सोय ॥ १८ ॥  
करे मनोरथ मन एहवा । जाजं तीर्थ शत्रुंजे जे-  
हवा ॥ समेतशिखर आवू गिरनार । जेटीश कवहुं  
धन अवतार ॥ १९ ॥ श्रावकनी करणी ठे एह ।  
एहथी थाये जवनो ठेह ॥ आठे करम पमे पा-  
तला । पापतणा दूटे आमला ॥ २० ॥ वारू लहीये  
अमर विमान । अनुक्रम पामे शिव पुरधान ॥  
कहे जिनहर्ष घणे ससनेह । करणी दुःखहरणी  
ठे एह ॥ २१ ॥

इति श्रावक करनी समाप्त ।

अथ सूतक विचार प्रारंभ ।

॥ प्रथम कोइने घरे जन्म थाय ते विषे ॥

१ पुत्रजन्मे दिन दशनुं सूतक तथा पुत्रीजन्मे

दिन वेनुं सूतक अने वनमा प्रसवे, तो दिन एकनुं सूतक.

७ जैस प्रसवे, तो दिन पंदर पठी तेनुं दूध कटपे.

८ गाय प्रसवे, तो दिन दश पठी तेनुं दूध कटपे.

१० गाली बकरी प्रसवे तो, दिन आठ पठी तेनुं दूध कटपे.

११ उंटणी प्रसवे, तो दिन दश पठी तेनुं दूध कटपे.

१२ दास दासी के जेनो आपणेज आश्रय जन्म थाय, अने जे आपणीज नजर आगल रखां होय, तो तेनुं चोवीश पहेर सुधीसूतक जाणवुं.

॥ ऋतुवंती स्त्री संबंधि सूतक निर्णय ॥

१ दिन त्रण सुधी ज्ञानादिकने बुवे नहीं. दिन चार लगे पम्क्कमणादिक करे नहीं पण तपस्या करे, ते लेखे लागे. दिन पांच पठी जिन पूजा करे. रोगादिक कारणे त्रण दिवस वीत्या पठी पण जो रुधिर दीगामां आवे, तो तेनो दोष

- ५ अन्य पुरुष जो मृतने अमक्या होय तो ते शौल पहोर पर्यत पम्कमणादि न करे.
- ६ जेने घरे जन्म तथा मरणनुं सूतक थाय, तेने घरे जमनारा दिन वार सुधी जिनपूजा करे नही.
- ७ वेषना पालटनारा आठ पोहोर सूतक पाले.
- ८ जन्मेते दिवसे मृत्यु थाय अथवा देशांतरे मरण पामे अथवा जति मरे तो दिन एकनुं सूतक.
- ९ आठ वर्षथी नानुं बालक मरण पामे, तो दिन आठनुं सूतक, विचारसार प्रकरणमां कछुं ठे.
- १० गाय प्रमुखनुं मृत्यु थाय तो कलेवर घरथी बाहेर लहि गया पठी दिन एक लगे सूतक अने अन्य तिर्यचनुं कलेवर पक्युं होय, तेने तो घरथी बाहेर लइ जाय, तिहां सुधी सूतक पठी नहीं.
- ११ दास दासी जे आपणी निश्राये घरमां रखां होय तेनुं मृत्यु थाय, तो त्रण दिवसे सूतक लागे





